

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

वार्षिक लेखे
ANNUAL ACCOUNTS
2021 - 2022

वार्षिक लेखे

ANNUAL ACCOUNTS

2 0 2 1 - 2 0 2 2



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi - 110 002

Toll-Free No.1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839

Website: www.esic.nic.in, www.esic.in

 esic.nic.in  [@esichq](https://www.facebook.com/esichq)  [@esichq](https://twitter.com/esichq)  [@esichq](https://www.youtube.com/esichq)  [@esichq](https://www.instagram.com/esichq)  [@esichq](https://www.whatsapp.com/esichq)



वार्षिक लेखे 2021-2022

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	4
2	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा	6
3	अनुसूची 1 – समग्र/पूँजी निधि	8
4	अनुसूची 2 – आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	8
5	अनुसूची 3 – उद्दिष्ट/अक्षय निधि	10
6	अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण एवं उधार	12
7	अनुसूची 5 – प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	14
8	अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं	14
9	अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	16
10	अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां	18
11	अनुसूची 9 – उद्दिष्ट निधियों से निवेश	20
12	अनुसूची 10 – निवेश-गैर उद्दिष्ट निधि/अक्षय निधि/अन्य	20
13	अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगियाँ आदि	22
14	अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियाँ इत्यादि (जारी)	24
15	अनुसूची 12 – अंशदान/बिक्री/सेवा से आय	26
16	अनुसूची 13 – अनुदान/सहायिकी	26
17	अनुसूची 14 – शुल्क/अभिदान	28
18	अनुसूची 15 – निवेश से आय	28
19	अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	30
20	अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	30
21	अनुसूची 18 – अन्य आय	32
22	अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी)	32
23	अनुसूची 20 – बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	34
24	अनुसूची 20 – ख नकद हितलाभ	36
25	अनुसूची 20 – ग अन्य हितलाभ	36
26	अनुसूची 20 – घ चिकित्सा शिक्षा	38
27	अनुसूची 21 – क स्थापना खर्च – अधीक्षण	40
28	अनुसूची 21 – ख स्थापना खर्च – क्षेत्र कार्य	40
29	अनुसूची 21 – स्थापना खर्च	42
30	अनुसूची 22 – अन्य प्रशासनिक खर्च	44
31	अनुसूची 23 – अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	46
32	अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	48
33	अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	50-62
34	अनुसूची 26 – पूर्वावधि मदें	64
35	निवेश – उद्दिष्ट आरक्षित निधियां	66
36	निवेश – गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधियां	68
37	वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा	70
38	31 मार्च, 2022 को सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति तथा भुगतान	72

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022



CONTENT

Sr. No.	Particulars	Page No.
1	Balance Sheet as at 31st March, 2022	5
2	Income and Expenditure Account for the Year Ended 31st March, 2022	7
3	Schedule 1 - Corpus / Capital Fund	9
4	Schedule 2 - Reserves and Surplus	9
5	Schedule 3 - Earmarked Fund	11
6	Schedule 4 – Secured Loan and Borrowings	13
7	Schedule 5 - Unsecured Loans and Borrowings	15
8	Schedule 6 - Deferred Credit Liabilities	15
9	Schedule 7 - Current Liabilities and Provisions	17
10	Schedule 8 - Fixed Assets	19
11	Schedule 9 - Investments from Earmarked Funds	21
12	Schedule 10 - Investments -Non-Earmarked/Endowment Funds/Others	21
13	Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances etc.	23
14	Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances etc. (Contd.)	25
15	Schedule 12 - Income from Contributions / Sales / Service	27
16	Schedule 13 - Grants / Subsidies	27
17	Schedule 14 - Fees / Subscriptions	29
18	Schedule 15 - Income from Investments	29
19	Schedule 16 - Income from Royalty, Publication etc.	31
20	Schedule 17 - Interest Earned	31
21	Schedule 18 - Other Income	33
22	Schedule 19 - Increase / (Decrease) in Stock of Finished Goods & Work in Progress	33
23	Schedule 20 - Expenditure on Benefits to Insured Persons	35
24	Schedule 20 – B Cash Benefits	37
25	Schedule 20 – C Other Benefits	37
26	Schedule 20 – D Medical Education	39
27	Schedule 21 - A Establishment Expenses - Superintendents	41
28	Schedule 21 - B Establishment Expenses - Field Work	41
29	Schedule 21 - Establishment Expenses	43
30	Schedule 22 - Other Administrative Expenses	45
31	Schedule 23 - Expenditure on Grants, Subsidies etc.	47
32	Schedule 24 - Significant Accounting Policy	49
33	Schedule 25 - Contingent Liabilities and Notes on Accounts	51-63
34	Schedule 26 - Prior Period Items	65
35	Investment - Earmarked Reserve Funds	67
36	Investment - Non Earmarked Reserve Funds	69
37	Receipt & Payment Account for the Year 2021-22	71
38	GPF Receipts and Payments as on 31st March, 2022	73



वार्षिक लेखे 2021-2022

कर्मचारी राज्य बीमा निगम 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ करोड़ में

समग्र/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	2021-22	2020-21
समग्र/पूंजी निधि	1	-	-
आरक्षितियां एवं अधिशेष	2	108,458.18	103,440.00
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	3	34,235.60	28,964.27
प्रतिभूत ऋण एवं उधार	4	-	-
प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयता	6	-	-
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7	4,045.26	3,730.61
कुल		146,739.04	136,134.88
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	15,943.50	15,196.59
निवेश-उद्दिष्ट/अक्षय निधियां	9	34,064.23	28,836.45
निवेश-गैर उद्दिष्ट/अक्षय निधि	10	91,157.85	87,416.87
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां इत्यादि	11	5,573.46	4,684.97
विविध व्यय (बट्टे खाते डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)			
कुल		146,739.04	136,134.88
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2022

एस. भाटिया
(मुखमीत एस. भाटिया)
महानिदेशक

U. Madh
(टी.एल. यादेन)
वित्त आयुक्त

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022





EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION Balance Sheet as at 31st March, 2022

₹ in crore

Corpus/ Capital Fund And Liabilities	Schedule	2021-22	2020-21
Corpus/Capital Fund	1	-	-
Reserves And Surplus	2	108,458.18	103,440.00
Earmarked/ Endowment Funds	3	34,235.60	28,964.27
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	4,045.26	3,730.61
Total		146,739.04	136,134.88
Assets			
Fixed Assets	8	15,943.50	15,196.59
Investments-Earmarked/Endowment Funds	9	34,064.23	28,836.45
Investments-Non Earmarked/Endowment Funds	10	91,157.85	87,416.87
Current Assets, Loans, Advances etc.	11	5,573.46	4,684.97
Miscellaneous Expenditure (To The Extent Not Written Off Or Adjusted)			
Total		146,739.04	136,134.88
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities And Notes On Accounts	25		

Place : New Delhi
Date : 27th May, 2022


(Mukhmeet S. Bhatia)
Director General


(T.L. Yaden)
Financial Commissioner



वार्षिक लेखे 2021-2022

कर्मचारी राज्य बीमा निगम 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

₹ करोड़ में

आय	अनुसूची	2021-22	2020-21
अंशदान से आय	12	15,308.98	13,787.79
अनुदान/सहायिकी	13	2.20	-
शुल्क/अभिदान	14	30.94	35.82
निवेश से आय (गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधि)	15	6,223.60	5,960.20
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17	10.78	13.64
अन्य आय	18	397.69	1,293.68
तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)	19		
कुल (क)		21,974.19	21,091.13
व्यय			
बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	20	15,859.32	12,295.92
स्थापना खर्च	21	932.20	1,155.61
अन्य प्रशासनिक खर्च	22	339.26	273.61
अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	23	-	-
ब्याज		-	-
मूल्यह्रास	8	56.41	41.98
कुल (ख)		17,187.19	13,767.12
व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख)		4,787.00	7,324.01
पूर्वावधि मर्दे (निवल)	26	231.18	20.59
पूँजीगत निर्माण आरक्षित के लिए प्रावधान	2	-	-
विशेष आरक्षित में अंतरण (आकस्मिकता आरक्षित)	2	-	-
सामान्य आरक्षित कोष में/से अंतरण	2		
अधिशेष के कारण शेष/(घाटा) को समग्र/पूँजी निधि/सामान्य आरक्षित में ले जाना		5,018.18	7,344.60
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION Income and Expenditure Account for the Year Ended 31st March' 2022

₹ in crore

Income	Schedule	2021-22	2020-21
Income from Contributions	12	15,308.98	13,787.79
Grants/Subsidies	13	2.20	-
Fees/Subscriptions	14	30.94	35.82
Income from Investments (non-earmarked reserves Fund)	15	6,223.60	5,960.20
Income from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17	10.78	13.64
Other Income	18	397.69	1,293.68
Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress	19		
Total (A)		21,974.19	21,091.13
Expenditure			
Expenditure on Benefits to Insured Persons	20	15,859.32	12,295.92
Establishments Expenses	21	932.20	1,155.61
Other Administrative Expenses	22	339.26	273.61
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	-	-
Interest		-	-
Depreciation	8	56.41	41.98
Total (B)		17,187.19	13,767.12
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		4,787.00	7,324.01
Prior Period Items(Net)	26	231.18	20.59
Provision for Capital Construction Reserve	2	-	-
Transfer to Special Reserve (Contingency reserve)	2	-	-
Transfer to/ from General Reserve	2		
Balance Being Surplus/(Deficit) Carried To Corpus/Capital Fund/General Reserve		5,018.18	7,344.60
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities And Notes On Accounts	25		



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 1—समग्र / पूंजी निधि :

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
जोड़ : समग्र / पूंजी निधि के लिए अंशदान	-	-
जोड़ / (कटौती) : निवल आय / (व्यय) का शेष आय एवं व्यय लेखा से अंतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

अनुसूची 2—आरक्षितियां एवं अधिशेष

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1. पूंजी आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	0.03	0.03
वर्ष के दौरान जोड़ (परिसंपत्तियां @ 1/- रु.ओपनिंग बैलेंस शीट 2012-13 में)		
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	0.00	(0.00)
उप-योग क	0.03	0.03
2. पुनर्मूल्यन आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
उप-योग ख	-	-
3. विशेष आरक्षित—आकस्मिकता आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	75.00	75.00
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां		
उप-योग ग	75.00	75.00
4. सामान्य आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	82,417.44	75,072.84
वर्ष के दौरान जोड़	5,018.18	7,344.60
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां / अंतरण		
उप-योग घ	87,435.62	82,417.44
5. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
पिछले लेखा के अनुसार	20,947.53	20,947.53
जोड़ : वर्ष के दौरान प्रावधान	-	-
जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़ / अंतरण	-	-
घटाना : निधि से भुगतान		
उप-योग ङ	20,947.53	20,947.53
कुल (क + ख + ग + घ + ङ)	108,458.18	103,440.00

Schedule 1- Corpus/Capital Fund

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	-	-
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
Balance at the year-end	-	-

Schedule 2- Reserves And Surplus

₹ in crore

Particulars		2021-22	2020-21
1.	Capital Reserve:		
	As per last Account	0.03	0.03
	Addition during the year(Assets @ Rs. 1/- in Opening Balance Sheet 2012-13)		
	Less: Deductions during the year	0.00	(0.00)
	Sub-Total (A)	0.03	0.03
2.	Revaluation Reserve		
	As per last Account	-	-
	Addition during the year	-	-
	Less: Deductions during the year	-	-
	Sub-Total (B)	-	-
3.	Special Reserve - Contingency Reserve		
	As per last Account	75.00	75.00
	Addition during the year	-	-
	Less: Deductions during the year		
	Sub-Total (C)	75.00	75.00
4.	General Reserve		
	As per last Account	82,417.44	75,072.84
	Addition during the year	5,018.18	7,344.60
	Less: Deductions /Transfer during the year		
	Sub-Total (D)	87,435.62	82,417.44
5.	Capital Construction Reserve Fund		
	As per last Account	20,947.53	20,947.53
	Add : Provision during the year	-	-
	Add : Other Additions/ Transfer during the year	-	-
	Less : Payment from the fund		
	Sub-Total (E)	20,947.53	20,947.53
	Total (A+B+C+D+E)	108,458.18	103,440.00



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधियां निधिवार ब्योरा

₹ करोड में

शीर्ष	स्थायी निःशक्तता हितलाम आरक्षित निधि	आश्रितजन हितलाम आरक्षित निधि	क. रा. बी. निगम कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि	मूल्यहास आरक्षित निधि-कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	मूल्यहास आरक्षित निधि-अस्पताल और औषधालयों (स्टाफ क्वार्टर सहित)	मूल्यहास आरक्षित निधि-अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ	मूल्यहास आरक्षित निधि-चिकित्सा शिक्षा भवन	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-पेशन	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-उपदान	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-छुट्टी नकदीकरण	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-पेशनर्स चिकित्सा योजना	कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि	कुल चालू वर्ष (2021-2022)	कुल पिछला वर्ष (2020-21)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क) निधियों का आदि शेष	8,517.26	2,918.03	-	43.34	1,381.62	1,800.86	615.86	10,670.51	825.73	812.91	201.32	1,176.83	28,964.27	26,291.08
ख) निधियों में जोड़														
1. प्रावधान	(266.43)	3,414.25	501.66	7.32	80.42	370.74	173.85	144.74	83.48	108.45	(15.21)	164.10	4,767.38	2,099.34
2. निधियों के निवेश से आय	606.14	207.67	-	1.18	91.14	128.15	43.83	759.38	58.76	57.85	14.33	81.31	2,049.76	1,917.44
3. अन्य जोड़	-	-	-	-	-	-	-	17.01	-	-	2.65	-	19.66	3.42
कुल (क+ख)	8,856.98	6,539.94	501.66	51.84	1,553.18	2,299.75	833.54	11,591.64	967.98	979.21	203.10	1,422.25	35,801.07	30,311.28
ग) निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय														
i. पूंजीगत व्यय														
नियत परिसंपत्तियां														
गैर उद्दिष्ट निधि को अंतरण														
ii. राजस्व व्यय														
निधि से बहिर्वाह	323.01	324.89	48.50	18.10	32.48	-	-	506.26	64.17	30.88	16.64	200.54	1,565.47	1,347.01
कुल (ग)	323.01	324.89	48.50	18.10	32.48	-	-	506.26	64.17	30.88	16.64	200.54	1,565.47	1,347.01
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)	8,533.97	6,215.05	453.17	33.74	1,520.70	2,299.75	833.54	11,085.38	903.81	948.33	186.46	1,221.71	34,235.60	28,964.27

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022



Schedule 3 - Earmarked Funds Fund-Wise Break Up

₹ in crore

Particulars	Permanent Disability Benefit Reserve fund	Dependent's Benefit reserve fund	ESIC COVID-19 Relief Scheme Reserve Fund	Depreciation Reserve Fund - Office Building & Staff Quarters	Depreciation Reserve fund - Hospital & Dispensaries (incl staff quarters)	Depreciation Reserve fund - Other Fixed Assets	Depreciation Reserve fund for Medical Education Building	Employees' Benefit Reserve Fund- Pension	Employees' Benefit Reserve Fund- Gratuity	Employees' Benefit Reserve Fund- Leave Encashment	Employees' Benefit Reserve Fund- Pensioners Medical Scheme	ESI Provident Fund	Total Current Year (2021-22)	Total Previous Year (2020-21)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Opening Balance	8,517.26	2,918.03	-	43.34	1,381.62	1,800.86	615.86	10,670.51	825.73	812.91	201.32	1,176.83	28,964.27	26,291.08
b) Additions to the Funds:														
i. Provisions	(266.43)	3,414.25	501.66	7.32	80.42	370.74	173.85	144.74	83.48	108.45	(15.21)	164.10	4,767.38	2,099.34
ii. Income from investments of fund	606.14	207.67	-	1.18	91.14	128.15	43.83	759.38	58.76	57.85	14.33	81.31	2,049.76	1,917.44
iii. Other additions	-	-	-	-	-	-	-	17.01	-	-	2.65	-	19.66	3.42
Total (a+b)	8,856.98	6,539.94	501.66	51.84	1,553.18	2,299.75	833.54	11,591.64	967.98	979.21	203.10	1,422.25	35,801.07	30,311.28
c) Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds														
i. Capital Expenditure														
- Fixed Assets														
- Transfer to Non Earmarked Fund														
ii. Revenue Expenditure														
Outflow from the fund	323.01	324.89	48.50	18.10	32.48	-	-	506.26	64.17	30.88	16.64	200.54	1,565.47	1,347.01
Total (c)	323.01	324.89	48.50	18.10	32.48	-	-	506.26	64.17	30.88	16.64	200.54	1,565.47	1,347.01
Net Balance as at the Year-end (a+b-c)	8,533.97	6,215.05	453.17	33.74	1,520.70	2,299.75	833.54	11,085.38	903.81	948.33	186.46	1,221.71	34,235.60	28,964.27



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण एवं उधार

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
क) आवधिक ऋण		
ख) प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
4. बैंक:	-	-
क) आवधिक ऋण		
- प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
- प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
6. डिबैंचर एवं बॉन्ड	-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

Schedule 4 – Secured Loans And Borrowings

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks:	-	-
a) Term Loans		
- Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)		
- Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
Total	-	-

Note: Amounts due within one year



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 5 - प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक:		
क) आवधिक ऋण		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क) पूंजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसंपत्तियों के मालबन्धन द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क. वर्तमान देयताएं	-	-
1. स्वीकृतियां/विविध जमा	58.89	60.16
2. विविध देनदार	-	-
क) माल एवं सेवाओं हेतु	740.08	486.60
ख) सेवाएं (अति विशिष्टता उपचार)	542.01	515.21
3. प्राप्त पेशगियां	-	-
4. प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं	-	-
क) प्रतिभूत ऋण/उधार	-	-
ख) प्रतिभूति रहित ऋण/उधार	-	-
5. सांविधिक देनदारियां	-	-
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)	29.01	11.99
ग) खाते पर देय	2,325.04	2,313.04
6. प्रतिभूति जमा तथा बयाना जमा (ईएमडी)	64.71	73.48
7. नई पेंशन योजना का अंशदान	44.73	42.50
8. क.रा.बी. निगम भविष्य निधि में दावा न की गई जमा राशियां	(0.00)	0.02
9. अन्य देयताएं	235.89	223.63
10. सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना (जीएसएलआईएस)	4.90	3.98
कुल (क)	4,045.26	3,730.61
ख. प्रावधान		
1. कराधान हेतु	-	-
2. उपदान	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटियां/दावे	-	-
6. लेखापरीक्षा शुल्क हेतु	-	-
7. अन्य	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	4,045.26	3,730.61

नोट :

- क्र.सं. क-2 (क) में माल की खरीद के लिए देय राशि शामिल है जिसे स्टॉक में लिया गया है।
- क्र. सं. क-9 में अन्य सभी मौजूदा देनदारियां शामिल है जैसे टेलीफोन शुल्क, बिजली, किराए आदि के लिए बकाया भुगतान।



Schedule 7 – Current Liabilities and Provisions

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
A. Current Liabilities	-	-
1. Acceptances/ Misc. Deposits	58.89	60.16
2. Sundry Creditors:	-	-
a) For Goods & Services	740.08	486.60
b) Services (SST)	542.01	515.21
3. Advances Received	-	-
4. Interest accrued but not due on:	-	-
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:	-	-
a) Overdue	-	-
b) Others-T. D. S.	29.01	11.99
c) On Account Payable	2,325.04	2,313.04
6. Security Deposits & EMD	64.71	73.48
7. Contribution of New Pension Sheme	44.73	42.50
8. Unclaimed Deposit in ESIC P.F.	(0.00)	0.02
9. Other liabilities	235.89	223.63
10. Group Saving Linked Insurance Scheme (GSLIS)	4.90	3.98
Total (A)	4,045.26	3,730.61
B. Provisions		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. For Audit fees	-	-
7. Others	-	-
Total (B)	-	-
Total (A+B)	4,045.26	3,730.61

Notes:

1) Sl. No. A - 2 (a) includes amount payable towards purchase of goods which have been taken into stock.

2) Sl. No. A - 9 includes all other current liabilities like outstanding payments towards telephone charges, electricity, rent, etc.



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	सकल खंड			मूल्यहास				निवल खंड
	वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ अंतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में स्थिति	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	
1.भूमि								
क) पूर्ण स्वामित्वाधीन	170.69	51.90	-	222.59	-	-	-	222.59
ख) पट्टाधृति	25.17	0.08	-	25.25	-	-	-	25.25
2.भवन :								
क) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर	489.20	(5.29)	-	483.91	63.29	7.32	-	70.61
ख) अस्पताल एवं औषधालय	2,734.49	(182.28)	-	2,552.21	553.89	80.42	-	634.31
ग) चिकित्सा शिक्षा भवन	5,854.14	(520.89)	-	5,333.25	576.39	173.85	-	750.24
घ) स्वामित्व वाले प्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से स्वामिती (क.रा.बी. निगम हिस्सा)	0.09	-	-	0.09	-	-	-	0.09
च) इकाई (सत्ता) से असंबंधित भूमि पर अधिरचना	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर	1,621.70	732.38	-	2,354.08	492.53	149.44	-	641.97
4. वाहन	2.73	0.78	-	3.51	1.67	0.26	-	1.93
5. फर्नीचर, जुड़नार	557.57	488.50	-	1,046.07	442.30	175.67	-	617.97
6. कार्यालय उपस्कर	44.36	12.58	-	56.94	27.91	6.68	-	34.59
7. कम्प्यूटर/सहायक उपकरण	546.44	18.17	-	564.61	377.41	38.76	-	416.17
8. बिजली के संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	9.79	1.38	-	11.17	5.80	1.29	-	7.09
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ-चिकित्सा शिक्षा	0.22	-	-	0.22	0.08	0.00	-	0.08
एक रुपये की दर से ओ.बी.एस. में परिसंपत्तियाँ	0.03	(0.00)	(0.00)	0.03	-	-	-	0.03
मौजूदा वर्ष का कुल	12,056.62	597.30	(0.00)	12,653.93	2,541.27	633.71	-	3,174.99
पिछला वर्ष	11,298.27	758.35	-	12,056.62	1,978.78	562.49	-	2,541.27
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3,139.96	493.62	344.01	3,289.57	-	-	-	3,289.57
कुल	15,196.58	1,090.92	344.01	15,943.50	2,541.27	633.71	-	3,174.99

₹ 633.71 करोड़ रुपये के कुल मूल्यहास में ₹ 162.16 करोड़ रुपये का मूल्यहास चिकित्सा स्थापनाओं पर अवस्थित स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है, ₹ 415.14 करोड़ रुपये चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है तथा ₹ 56.41 करोड़ रुपये प्रशासनिक कार्यालयों में स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है। चिकित्सा स्थापनाओं और चिकित्सा शिक्षा का मूल्यहास अनुसूची 20क तथा 20घ में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रशासनिक कार्यालयों में परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है। पिछले वर्षों में भवन शीर्ष के अंतर्गत मूलवश दर्ज अचल परिसंपत्तियों के पुनःवर्गीकरण के लिए वर्ष के दौरान सुधार प्रविष्टि की गई।

Schedule 8 - Fixed Assets

₹ in crore

Description	Gross Block				Depreciation				Net Block As at the current year-end
	Cost valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions/Transfer during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	During The year	On Deductions During the year	Total up to year end	
1. Land:									
a) Freehold	170.69	51.90	-	222.59	-	-	-	-	222.59
b) Leasehold	25.17	0.08	-	25.25	-	-	-	-	25.25
2. Buildings:									
a) Office Building & Staff Qtrs.	489.20	(5.29)	-	483.91	63.29	7.32	-	70.61	413.30
b) Hospitals & Dispensaries	2,734.49	(182.28)	-	2,552.21	553.89	80.42	-	634.31	1,917.89
c) Medical Education Building	5,854.14	(520.89)	-	5,333.25	576.39	173.85	-	750.24	4,583.01
d) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Jointly owned with State Gove (ESIC Share)	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	0.09
f) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plants Machinery & Equipments	1,621.70	732.38	-	2,354.08	492.53	149.44	-	641.97	1,712.10
4. Vehicles	2.73	0.78	-	3.51	1.67	0.26	-	1.93	1.58
5. Furniture, Fixtures,	557.57	488.50	-	1,046.07	442.30	175.67	-	617.97	428.09
6. Office Equipment	44.36	12.58	-	56.94	27.91	6.68	-	34.59	22.35
7. Computer/Peripherals	546.44	18.17	-	564.61	377.41	38.76	-	416.17	148.44
8. Electric Installations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Library Books	9.79	1.38	-	11.17	5.80	1.29	-	7.09	4.07
10. Tubewells & W. Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Other Fixed Assets-Medical Education	0.22	-	-	0.22	0.08	0.00	-	0.08	0.14
Assets In Obs @ Rs.1	0.03	(0.00)	(0.00)	0.03	-	-	-	-	0.03
Total of Current Year (2021 -22)	12,056.62	597.30	(0.00)	12,653.93	2,541.27	633.71	-	3,174.99	9,478.94
Previous Year (2020-21)	11,298.27	758.35	-	12,056.62	1,978.78	562.49	-	2,541.27	9,515.35
Capital Work-In Progress	3,139.96	493.62	344.01	3,289.57	-	-	-	-	3,289.57
Total	15,196.58	1,090.92	344.01	15,943.50	2,541.27	633.71	-	3,174.99	12,768.51

Out of the total depreciation of ₹ 633.71 Crores, depreciation to the tune of ₹ 162.16 Crores pertains to fixed assets located at medical establishments, ₹ 415.14 Crores pertains to Medical Education and ₹ 56.41 Crores pertain to fixed assets at Administrative Offices. The depreciation of Medical Establishments and Medical Education has been presented in Schedule 20 A and 20 D and Depreciation on assets at Administrative offices is shown in Income & Expenditure Account. During the year rectification entry has been made for re-classification of fixed assets inadvertently booked under the buildings in previous years.





वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 9 - उद्दिष्ट निधियों से निवेश

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	17893.30	15147.24
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,669.83	1,413.56
3 शेयर		
4 डिबेंचर एवं बॉन्ड	9,243.10	7,824.59
5 समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6 अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के पास मियादी जमा तथा एस.डी.ए.	5,258.00	4,451.06
कुल	34,064.23	28,836.45

(संलग्नक-1 के अनुसार ब्योरा)

अनुसूची 10 - निवेश-गैर उद्दिष्ट निधि/अक्षय निधि/(अन्य)

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	47,635.97	46,935.20
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4,456.59	4,380.04
3 शेयर		
4 डिबेंचर एवं बॉन्ड	24,786.06	22,309.58
5 समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6 अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के पास मियादी जमा तथा एस.डी.ए.	14,279.23	13,792.05
कुल	91,157.85	87,416.87

(संलग्नक-2 के अनुसार ब्योरा)



SCHEDULE 9 – INVESTMENTS FROM EARMARKED FUND

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1. In Government Securities	17893.30	15147.24
2. Other approved Securities	1,669.83	1,413.56
3. Shares		
4. Debentures and Bonds	9,243.10	7,824.59
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Fixed Deposits with Scheduled commercial Banks & SDA	5,258.00	4,451.06
Total	34,064.23	28,836.45

(Detail as per Annexure-I)

Schedule 10 – Investments - Non- Earmarked / Endowment Funds / (Others)

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1. In Government Securities	47,635.97	46,935.20
2. Other approved Securities	4,456.59	4,380.04
3. Shares		
4. Debentures and Bonds	24,786.06	22,309.58
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Fixed Deposits with Scheduled commercial Banks & SDA	14,279.23	13,792.05
Total	91,157.85	87,416.87

(Detail as per Annexure-II)



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियां आदि ₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क. वर्तमान परिसंपत्तियाँ:		
1 वस्तु-सूची		
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	142.71	137.00
ख) फुटकर औजार	-	-
ग) कारोबारी माल	-	-
– तैयार माल	-	-
– चल रहा कार्य	-	-
– कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार	-	-
क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया देनदारियां	-	-
ख) अन्य	-	-
3 नकद राशि (चेक/ड्राफ्ट सहित)	0.02	0.03
4 बैंक में शेष	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
– चालू खातों पर	-	-
– जमा खातों पर (मुनाफा शामिल है)	-	-
– बचत खातों पर	52.74	50.91
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
– चालू खातों पर	-	-
– जमा खातों पर	-	-
– बचत खातों पर	-	-
5 डाकघर-बचत खाता	-	-
6 धन प्रेषण	387.51	305.47
कुल (क)	582.98	493.41

- क्र.सं 1 (क) में दिनांक 31 मार्च तक के अनुसार दवाएं, प्रयोगशाला वस्तुएं, शल्य चिकित्सा उपस्कर, वर्दियां, चादरें (गद्दे सहित), बर्तन तथा कटलरी, एक्स-रे फिल्में तथा मशीनरी पुर्जों के अलावा अतिरिक्त पुर्जे शामिल हैं।
- क्र सं. 1 (ख) में भंडार में उपलब्ध वस्तुएं शामिल हैं जो उपस्कारों को जोड़ने हेतु उपयोगी हैं जैसे स्पैनर, जिग्स, जैक आदि, शामिल है।
- चूँकि लेखन सामग्री, मुद्रित प्रपत्र तथा रजिस्टर और गृह प्रबंधन उपभोग्य वस्तुएं हैं तथा इसके भौतिकता (मैटिरियलिटी) को देखते हुए इन्हें वस्तु सूची में नहीं माना जाता है।

Schedule 11 – Current Assets, Loans, Advances etc

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
A. Current Assets:		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares	142.71	137.00
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade	-	-
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
- Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors:	-	-
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others	-	-
3. Cash in hand (including cheques/drafts)	0.02	0.03
4. Bank Balances:	-	-
a) With Scheduled Banks:	-	-
-On Current Accounts	-	-
-On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
-On Savings Accounts	52.74	50.91
b) With non-Scheduled Banks:	-	-
-On Current Accounts	-	-
-On Deposit Accounts	-	-
-On Savings Accounts	-	-
5. Post Office- Savings Accounts	-	-
6. Remittances	387.51	305.47
Total (A)	582.98	493.41

1. Sl No1. (a) includes stock of medicines, lab items, surgical equipments, liveries, linens (including mattresses), utensils & cutleries, X-ray films & space parts other than machinery spares as on 31st March
2. Sl. No. 1(b) includes the items that are available in the stores which are useful for assembly of equipments, like spanners, jigs, jacks, etc.
3. Stationeries, printed forms and Registers and housekeeping items are not considered as inventories, as they are consumable and considering the materiality.



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी)

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
ख. ऋण, पेशगियां एवं अन्य परिसंपत्तियाँ		
1. ऋण:	-	-
क) कर्मचारिवृन्द	-	-
ख) उस इकाई के समान गतिविधियों/लक्ष्यों में कार्यरत अन्य संस्थाएं	-	-
ग) अन्य-राज्य सरकार को	-	-
2. नकदी में समायोज्य/वसूलीयोग्य पेशगियाँ तथा अन्य राशियाँ		
क) पूंजीगत लेखा पर		
ख) पूर्व अदायगियां	7.16	4.23
ग) कार्यालय प्रमुखों को स्थायी पेशगी	1.54	1.48
घ) कर्मचारियों के स्थानांतरण पर वेतन की पेशगियां	(0.07)	(0.06)
ङ) कर्मचारियों को मोटर वाहन पेशगी	(1.31)	(1.18)
च) गृह निर्माण अग्रिम	2.41	2.07
छ) त्योहार/पंखा/बाढ़ पेशगियां	0.56	2.43
ज) कम्प्यूटर पेशगी	2.79	3.20
झ) अन्य विविध पेशगियाँ	813.65	429.70
ञ) स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत/दैनिक भत्ता अग्रिम	10.36	13.48
उप योग	837.09	455.35
3. अस्पताल/औषधालयों/कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव/विशेष मरम्मत हेतु पेशगी		
क) मरम्मत एवं रखरखाव – कार्यालय भवन	26.36	22.03
ख) मरम्मत एवं रखरखाव – अस्पताल एवं औषधालय	99.74	51.07
ग) विशेष मरम्मत – कार्यालय भवन	33.61	26.77
घ) विशेष मरम्मत – अस्पताल एवं औषधालय	137.66	100.95
उप योग	297.37	200.82
4. प्रोद्भूत आय :		
क) निवेश पर	2,365.50	2,185.81
ख) ऋण एवं पेशगियों पर	-	-
ग) अंशदान प्राप्य	1,413.17	1,316.06
(.....रूपये की अप्राप्य देय आय शामिल है)		
उप योग	3,778.66	3,501.87
5. प्राप्ति योग्य दावे	77.36	33.52
कुल (ख)	4,990.48	4,191.56
कुल(क+ख)	5,573.46	4,684.97

SCHEDULE 11 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
B. Loans, Advances And Other Assets		
1. Loans:	-	-
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity		-
c) Other -To State Govt.	-	-
2. Advances and other amounts adjustable/recoverable in cash		
a) On Capital Account		
b) Prepayments	7.16	4.23
c) Permanent advance to Heads of the Office	1.54	1.48
d) Advances of pay on transfer of employees	(0.07)	(0.06)
e) Advances on motor conveyance to employees	(1.31)	(1.18)
f) House Building advance	2.41	2.07
g) Festival / Fan / Flood advances	0.56	2.43
h) Computer advance	2.79	3.20
i) Other Misc. advances	813.65	429.70
j) Advance of TA/LTC/DA on transfer	10.36	13.48
Sub Total	837.09	455.35
3. Advance towards Repair & Maintenance / Special Repair of Hospital/ Dispensaries/Office Building :		
a) Repair & Maint-Office Building	26.36	22.03
b) Repair & Maint-Hospital & Disp	99.74	51.07
c) Special Repair-Office Building	33.61	26.77
d) Special Repair-Hospital & Disp.	137.66	100.95
Sub Total	297.37	200.82
4. Income Accrued:		
a) On Investments	2,365.50	2,185.81
b) On Loans and Advances	-	-
c) Contribution Receivables (includes income due unrealized-Rs.....)	1,413.17	1,316.06
Sub Total	3,778.66	3,501.87
5. Claims Receivable	77.36	33.52
Total (B)	4,990.48	4,191.56
Total (A+B)	5,573.46	4,684.97



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 12 – अंशदान/बिक्री/सेवा से आय

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1. अंशदान से आय		
क) अंशदान	15,282.60	13,770.31
ख) अंशदान पर ब्याज	26.38	17.48
2. सेवाओं से आय	-	-
क) श्रम और प्रक्रमण प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (यंत्र/सम्पत्ति)	-	-
ङ) चिकित्सा सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों से प्राप्त राशि		
कुल	15,308.98	13,787.79

अनुसूची 13 – अनुदान/सहायिकी (प्राप्त किए गए अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सहायिकियां)

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1) केन्द्र सरकार	-	-
2) राज्य सरकार (रैं)	-	-
3) सरकारी एजेंसियां	-	-
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय	-	-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)	2.20	-
कुल	2.20	-

Schedule 12 – Income From Contributions/Sales/Service

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1) Income from Contributions		
a) Contributions	15,282.60	13,770.31
b) Interest on Contributions	26.38	17.48
2) Income from Services	-	-
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional/Consultancy Service	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment/Property)	-	-
e) Amount received from retired IPs towards medical services		
Total	15,308.98	13,787.79

Schedule 13 – Grants/Subsidies (Irrevocable Grants & Subsidies Received)

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1) Central Government	-	-
2) State Government(s)	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions/Welfare Bodies	-	-
5) International Organisations	-	-
6) Others (Specify)	2.20	-
Total	2.20	-



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 14 – शुल्क / अभिदान

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1) प्रवेश / दाखिला शुल्क	26.14	29.96
2) वार्षिक शुल्क / अभिदान	-	-
3) संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्श शुल्क	-	-
5) अन्य	4.80	5.86
कुल	30.94	35.82

अनुसूची 15 – निवेश से आय

(निधियों में अंतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर आय)

₹ करोड़ में

विवरण	उद्दिष्ट निधि के निवेश से*		निवेश-गैर-उद्दिष्ट निधियां**	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1). ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	1167.22	1,248.00	3544.00	3,867.04
ख) अन्य बांड / डिबेंचर	515.00	219.53	1563.67	680.24
ग) अन्य प्रतिभूतियाँ	47.70	73.13	144.84	226.61
घ) बैंक मियादी जमा एवं एस.डी.ए.	319.83	376.78	971.10	1,186.31
कुल	2,049.76	1,917.44	6,223.60	5,960.20
2) लाभांश				
क) शेयर पर				
ख) म्युच्युअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3) अन्य				
सकल योग	2,049.76	1,917.44	6,223.60	5,960.20
उद्दिष्ट निधियों को अंतरण	2,049.76	1,917.44		

* संलग्नक-I के अनुसार ब्योरा

** संलग्नक-II के अनुसार ब्योरा

Schedule 14 – Fees/Subscriptions

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1) Entrance / Admission Fees	26.14	29.96
2) Annual Fees/Subscriptions	-	-
3) Seminar/Program Fees	-	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others	4.80	5.86
Total	30.94	35.82

Schedule 15 – Income from Investments

(Income on Investment from Earmarked Funds transferred to Funds)

₹ in crore

Particulars	Investment from Earmark Fund*		Investment- Non Earmarked Funds**	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1) Interest				
a) On Govt. Securities	1167.22	1,248.00	3544.00	3,867.04
b) Other Bonds/Debentures	515.00	219.53	1563.67	680.24
c) Others securities	47.70	73.13	144.84	226.61
d) Bank Fixed Deposits & SDA	319.83	376.78	971.10	1,186.31
Total	2,049.76	1,917.44	6,223.60	5,960.20
2) Dividends:				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3) Others				
Grand Total	2,049.76	1,917.44	6,223.60	5,960.20
Transferred To Earmarked Funds	2,049.76	1,917.44		

* Details as per Annexure I

** Details as per Annexure II



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1) रॉयल्टी से आय		
2) प्रकाशन से आय		
3) अन्य		
कुल		

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1) सावधिक जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थाओं के साथ		
घ) अन्य		
2) बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	10.67	13.44
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋण/अग्रिम :		
क) कर्मचारी/स्टाफ	0.12	0.20
ख) अन्य	-	-
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
कुल	10.78	13.64

नोट: स्रोत पर काटे गए कर का उल्लेख

Schedule 16 – Income from Royalty, Publication etc.

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1) Income from Royalty		
2) Income from Publications		
3) Others		
Total		

Schedule 17 – Interest Earned

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	10.67	13.44
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
3) On Loans / advances:		
a) Employees/Staff	0.12	0.20
b) Others	-	-
4) Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
Total	10.78	13.64

Note : Tax deducted at source to be indicated



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 18 - अन्य आय

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1) परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
क) मालिकाना परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से अभिगृहीत या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2) राज्य सरकार से निर्यात प्रोत्साहन वसूली / प्रतिपूर्ति	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क (चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति)	-	-
4) विविध आय	341.72	1,257.61
5) किराया, दर और कर	12.04	4.91
6) शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियां, हर्जाना	43.93	31.16
7) राज्य सरकार / दिल्ली प्रशासन का हिस्सा	-	-
8) असंगठित क्षेत्र से अंशदान	0.01	-
कुल	397.69	1,293.68

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी)

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क) शेष स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- चल रहा कार्य	-	-
ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- चल रहा कार्य	-	-
निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख)	-	-

Schedule 18 – Other Income

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1) Profit on Sale/disposal of Assets:		
a) Owned assets	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2) Export Incentives realized/Compensation from State Govt.	-	-
3) Fees for Miscellaneous Services(Medical Education Receipts)	-	-
4) Miscellaneous Income	341.72	1,257.61
5) Rent, Rates and Taxes	12.04	4.91
6) Fee, Fine & Forfeitures,Damages	43.93	31.16
7) State Govts./Delhi Admn's share	-	-
8) Contribution from Unorganized Sector	0.01	-
Total	397.69	1,293.68

Schedule 19 – Increase/(Decrease) In Stock of Finished Goods & Work In Progress

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
a) Closing stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
Net Increase/(Decrease) [A-B]	-	-



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 20 – बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची – 20–क चिकित्सा हितलाभ		
1) क.रा.बी.निगम के हिस्से के खर्च के रूप में राज्य सरकार/सोसायटी को भुगतान	4,541.22	3,926.44
2) निम्नलिखित प्रदान करने पर प्रत्यक्ष खर्च की गई राशि :-		
(क) क.रा.बी. निगम द्वारा अपने अस्पतालों/औषधालयों/व्यवसायजन्य रोग केन्द्रों में चिकित्सा देखरेख और मातृत्व सुविधाएं		
(i) वेतन एवं भत्तों पर	2,401.16	2,166.24
(ii) अन्य प्रशासनिक व्यय पर	487.67	421.85
(iii) औषधियों एवं मरहमपट्टी पर	873.13	622.55
(iv) अपशेष प्रबंधन	5.35	0.36
उप कुल (क)	3,767.31	3,211.01
(ख) बीमाकृत महिला एवं बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को प्रसवावस्था खर्च	5.15	3.83
(ग) अति विशिष्टता उपचार	1,372.29	1,231.82
(घ) द्वितीयक देखरेख	145.65	193.48
(ङ) नियोक्ता उपयोग औषधालय	1.26	1.21
3) मूल्यह्रास (अस्पताल एवं औषधालय पर)	162.16	149.75
4) मरम्मत एवं रखरखाव-अस्पताल तथा औषधालय भवन	205.62	169.70
5) अस्पताल तथा औषधालय के लिए दर और कर	37.83	25.48
कुल (क)	10,238.49	8,912.71

Schedule 20 – Expenditure On Benefits To Insured Persons

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
Schedule 20- A Medical Benefits		
1) Payments to State Governments/Society as ESIC's share of expenditure	4,541.22	3,926.44
2) Expenditure incurred directly on providing:		
(a) Medical care & maternity facilities by ESIC in own Hospitals, Dispensaries/ODC:		
(i) On Pay & Allowances	2,401.16	2,166.24
(ii) On Other Administrative expenditure	487.67	421.85
(iii) On Drugs & Dressings	873.13	622.55
(iv) On Waste Management	5.35	0.36
Sub-Total (a)	3,767.31	3,211.01
(b) Confinement expenses to insured women & wives of IP	5.15	3.83
(c) Super Specialities Treatment	1,372.29	1,231.82
(d) Secondary Care	145.65	193.48
(e) Employer Utility Dispensary	1.26	1.21
3) Depreciation (Hospital & Dispensaries)	162.16	149.75
4) Repairs & Maintenance - Hospital & Dispensary Buildings	205.62	169.70
5) Rates & Taxes for Hospital & Dispensaries	37.83	25.48
Total (A)	10,238.49	8,912.71



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 20 ख - नकद हितलाभ

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1) बीमारी हितलाभ	371.25	289.90
2) वर्धित बीमारी हितलाभ	0.44	0.03
3) विस्तारित बीमारी हितलाभ	57.74	49.61
4) प्रसूति हितलाभ	374.89	390.04
5) निःशक्तता हितलाभ		
क) अस्थायी	117.28	82.65
ख) स्थायी (पूँजीकृत मूल्य)	-	1,849.52
6) आश्रितजन हितलाभ (पूँजीकृत मूल्य)	3,414.25	-
7) क.रा.बी.नि. कोविड-19 राहत योजना	501.66	-
8) अंत्येष्टि खर्च	41.69	27.80
9) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (बेरोजगारी भत्ता)	22.43	13.17
10) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	22.54	59.17
कुल (ख)	4,924.17	2,761.89

अनुसूची 20 ग - अन्य हितलाभ

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1) चिकित्सा बोर्ड और अपीलीय अधिकरण	0.37	0.29
2) बीमाकृत व्यक्ति को सवारी खर्च के लिए भुगतान	1.13	1.17
3) मजदूरी की हानि	0.12	0.06
4) विविध	1.09	1.88
कुल (ग)	2.71	3.40



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 20 घ – चिकित्सा शिक्षा

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
1) वेतन एवं भत्ते	253.09	226.37
2) अन्य प्रशासनिक खर्च	19.38	17.79
3) मूल्यहास – चिकित्सा शिक्षा	415.14	370.75
4) मरम्मत एवं रखरखाव – चिकित्सा शिक्षा भवन	6.35	3.01
कुल (घ)	693.95	617.92
कुल (क+ख+ग+घ)	15,859.32	12,295.92



Schedule 20 D – Medical Education

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
1) Pay & Allowances	253.09	226.37
2) Other Administrative Expenses	19.38	17.79
3) Depreciation -Medical Education	415.14	370.75
4) Repairs & Maintenance - Medical Education Buildings	6.35	3.01
Total (D)	693.95	617.92
Total (A+B+C+D)	15,859.32	12,295.92



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 21क - स्थापना खर्च - अधीक्षण

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क) वेतन और मजदूरी	336.67	330.07
ख) भत्ते	220.15	170.47
ग) बोनस	8.38	9.18
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम हिस्सा	-	-
ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी. निगम हिस्सा	-	-
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	1.47	1.41
छ) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों पर खर्च	-	-
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
झ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	-	-
उप-योग (क)	566.67	511.13

अनुसूची 21ख - स्थापना खर्च - क्षेत्र कार्य

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क) वेतन और मजदूरी	115.53	117.82
ख) भत्ते	68.28	53.73
ग) बोनस	3.33	3.85
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम हिस्सा	-	-
ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी. निगम हिस्सा	-	-
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	0.12	0.08
छ) कर्मचारी हतलाभों पर खर्च	-	-
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
झ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	-	-
उप-योग (ख)	187.26	175.48



Schedule 21A – Establishment Expenses - Superintendents

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
a) Salaries and Wages	336.67	330.07
b) Allowances	220.15	170.47
c) Bonus	8.38	9.18
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	1.47	1.41
g) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
Sub-Total (A)	566.67	511.13

Schedule 21 B – Establishment Expenses - Field Work

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
a) Salaries and Wages	115.53	117.82
b) Allowances	68.28	53.73
c) Bonus	3.33	3.85
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	0.12	0.08
g) Expenses on Employees Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
Sub-Total (B)	187.26	175.48



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 21 – स्थापना खर्च

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क) वेतन और मजदूरी	452.19	447.89
ख) भत्ते	288.43	224.20
ग) बोनस	11.71	13.03
घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	1.59	1.49
ङ) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	-	-
च) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
छ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ज) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	0.06	0.10
झ) प्रावधान :-		
i) पेंशन	53.98	314.63
ii) उपदान	31.19	37.95
iii) छुट्टी नकदीकरण	39.06	39.90
iv) पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	-	30.91
ञ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	53.78	45.39
ट) सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना का क.रा.बी. निगम का अंश	0.19	0.12
कुल (क + ख)	932.20	1,155.61



Schedule 21 – Establishment Expenses

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
a) Salaries and Wages	452.19	447.89
b) Allowances	288.43	224.20
c) Bonus	11.71	13.03
d) Staff Welfare Expenses	1.59	1.49
e) Expenses on Employees Benefits	-	-
f) Leave salary & Pension contribution	-	-
g) Compassionate grants	-	-
h) PF Deposit Linked Insurance Scheme	0.06	0.10
i) Provision for :-		
i) Pension	53.98	314.63
ii) Gratuity	31.19	37.95
iii) Leave Encashment	39.06	39.90
iv) Pensioners Medical Scheme	-	30.91
j) ESIC share of New Pension Scheme	53.78	45.39
k) ESIC share of GSLIS	0.19	0.12
TOTAL (A + B)	932.20	1,155.61



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 22 - अन्य प्रशासनिक खर्च

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
(i) विद्युत और शक्ति	18.76	18.43
(ii) जल प्रभार	1.24	1.44
(iii) बीमा	0.69	0.56
(iv) किराया, पौरकर और कर	40.04	36.75
(v) वाहन चालन और मरम्मत (भाड़ा प्रभार सहित)	3.43	3.17
(vi) डाकखर्च, टेलीफोन और संचार प्रभार	8.50	7.31
(vii) छपाई और लेखन सामग्री	4.96	4.09
(viii) यात्रा और सवारी खर्च	8.50	6.67
(xi) अभिदान खर्च-आवधिक	0.19	0.16
(x) बाह्य लेखापरीक्षा शुल्क	0.52	0.09
(xi) आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.00	0.00
(xii) परामर्श सेवा व्यय	0.12	1.34
(xiii) निवेश प्रबंधन प्रभार	2.35	3.50
(xiv) विधिक प्रभार	3.49	2.46
(xv) बीमा न्यायालय	0.26	0.14
(xvi) अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ईसा) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	0.93	0.94
(xvii) रखरखाव खर्च	27.65	25.20
(xviii) बैंक खाता बनाए रखने के प्रभार एवं अन्य बैंक प्रभार	8.66	8.59
(xix) हानियाँ	0.00	0.00
(xx) मरम्मत और रखरखाव - ईआरपी प्रचालन खर्च तथा अन्य मरम्मत	48.57	38.72
(xxi) भर्ती खर्च	53.86	0.15
(xxii) राजस्व वसूली प्रकोष्ठ	0.55	0.53
(xxiii) विज्ञापन और प्रचार	11.70	10.25
(xxiv) पहरा व निगरानी	44.32	45.89
(xxv) प्रशिक्षण	0.07	0.18
(xxvi) विविध	15.33	13.73
(xxvii) स्वच्छता कार्य योजना व्यय	0.25	0.22
(xxviii) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत व रखरखाव	34.31	43.10
कुल	339.26	273.61

Schedule 22 – Other Administrative Expenses

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
(i) Electricity and power	18.76	18.43
(ii) Water charges	1.24	1.44
(iii) Insurance	0.69	0.56
(iv) Rent, Rates and Taxes	40.04	36.75
(v) Vehicles Running and Maintenance(Including Hire Charges)	3.43	3.17
(vi) Postage, Telephone and Communication Charges	8.50	7.31
(vii) Printing and Stationary	4.96	4.09
(viii) Travelling and Conveyance Expenses	8.50	6.67
(ix) Subscription Expenses - periodicals	0.19	0.16
(x) External Audit Fees	0.52	0.09
(xi) Internal Audit Fees	0.00	0.00
(xii) Consultancy Services Expenditure	0.12	1.34
(xiii) Investment Management Charges	2.35	3.50
(xiv) Legal Charges	3.49	2.46
(xv) Insurance Courts	0.26	0.14
(xvi) Contribution to ISSA & other international organisations	0.93	0.94
(xvii) House keeping expenses	27.65	25.20
(xviii) Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	8.66	8.59
(xix) Losses	0.00	0.00
(xx) Repairs and Maintenance -ERP Operating Expenses & Others repairs	48.57	38.72
(xxi) Recruitment expenses	53.86	0.15
(xxii) Revenue recovery Cell	0.55	0.53
(xxiii) Advertisement and Publicity	11.70	10.25
(xxiv) Watch & Ward	44.32	45.89
(xxv) Training	0.07	0.18
(xxvi) Miscellaneous	15.33	13.73
(xxvii) swachhata action plan expenditure	0.25	0.22
(xxviii) Repair & Maint. of office Building & Staff Quarters	34.31	43.10
Total	339.26	273.61



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 23 - अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियां	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 23क - ब्याज

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क) नियत ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) अन्य (यदि हो तो उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-

Schedule 23 – Expenditure On Grants, Subsidies Etc.

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
a) Grants given to Institutions/Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
Total	-	-

Schedule 23A – Interest

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans (including Bank Charges)	-	-
c) Others (specify)	-	-
Total		



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1	वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत लेखाकरण के सामान्य फार्मेट की संगत प्रस्तुतियोग्य अनिवार्यताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत अन्यथा वर्णित हो।
2	स्थायी परिसंपत्ति : (क) स्थायी परिसंपत्तियाँ सकल मूल्य की ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं।
3	मूल्यह्रास : (क) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास क.रा.बी. निगम की आशोधित लेखाकरण नीति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। पूंजीकरण वर्ष में ₹ 5,000/- तक की लागत वाली सभी परिसंपत्तियों का पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है। चालू वर्ष 2021-2022 के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्ति के लिए आनुपातिक मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।
4	वस्तु सूची : निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में वस्तु-सूची, भंडार और अतिरिक्त माल का मूल्यवान लागत पर किया जाता है। ये लागतें प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम आधार पर होती हैं। क.रा.बी. निगम लेखाकरण नीति के अनुसार वस्तु -सूची में केवल दवाओं, प्रयोगशाला वस्तुएं जैसे किटें, केमिकल आदि, शल्य चिकित्सा, उपस्कर, गद्दे सहित चादर, वर्दी, एक्स -रे फिल्में तथा केमिकल एवं कटलरीज़ तथा बर्तन शामिल हैं। लेखन सामग्री वस्तुएं केवल राजस्व खर्च के लिए प्रभार्य हैं।
5	राजस्व : राजस्व का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। तथापि, नियोक्ता को जारी किए गए मांग/वसूली नोटिस के माध्यम से की गई किसी वसूली के मामले में, राजस्व का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखा-जोखा नकद आधार पर रखा जाता है।
6	निवेश : दीर्घ अवधि के रूप में वर्गीकृत निवेश तथा चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। सभी निवेश अनुमोदित निवेश नीति में यथानिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋण, सरकारी गारंटी बॉण्ड, सरकार सेवित बॉण्ड, एएए, सीपीएसयू बॉण्ड, मियादी जमा तथा अन्य प्रतिभूतियों के रूप में संविभाग प्रबंधकों के माध्यम से किए जाते हैं।
7	कर्मचारी हितलाभ : पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के लिए पृथक निधि रखी गई है। ऐसी मदों पर निगम की देयता का वर्ष के अंत में बीमांकन आधार पर हिसाब किया जाता है। बीमांकन मूल्यांकन के कारण निधि में जोड़ या घटा का, जोड़ या घटा के वर्ष में निगम के व्यय या आय के रूप में, यथास्थिति, हिसाब रखा जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हिसाब उसी वर्ष में व्यय के रूप में किया जाता है।
8	पूंजीगत निर्माण आरक्षित: पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) को अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 1 द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 161वीं बैठक में "गैर-उद्दिष्ट निधि" के रूप में घोषित किया गया। फरवरी, 2019 में आयोजित, क.रा.बी. निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सी.सी.आर.एफ. के लिए प्रावधान 5 वर्ष के लिए नहीं बनाए जाने हैं। अभी भी हम पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि से कार्य प्रगति पर (डब्ल्यूआईपी) प्रभारित कर रहे हैं। पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में शेष वर्ष प्रति-वर्ष कम हो रहा है।

SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

1	The Financial Statement are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting recommended by C & AG of India.
2	Fixed Assets: Fixed assets are stated at historical cost at gross value.
3	Depreciation: (a) Depreciation on Fixed Assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in Companies Act, 2013 as per revised accounting policy of ESIC. All assets costing up to ₹ 5,000 are fully depreciated in the year of capitalization. Proportionate depreciation is provided for assets capitalised during the current year 2021-22
4	Inventory: Inventory, store and spares in Hospitals managed by Corporation are valued at cost. The costs are based on first in first out basis. As per accounting Policy of ESIC inventory comprises of Medicines, Lab Items viz. kits, chemicals etc., Surgical Equipment's, Linen including Mattress, Liveries, X-ray Films and chemicals & Cutleries and Utensils only. Stationery items are charged to revenue expenditure only.
5	Revenue: Revenue is accounted on accrual basis. However in case of any recovery through demand/recovery notice issued to employer, which can be disputed in court of law, the revenue is recorded on cash basis. Further, Interest on advance to employees is accounted for on cash basis.
6	Investment: Investment classified as long-term and current investments are carried at cost. All investments are made as per approved investment policy through portfolio managers in the form of Government Securities, State Development Loans, Government Guaranteed Bonds, Government serviced bonds, AAA CPSU Bonds, Fixed Deposits and other securities as specified in approved Investment policy.
7	Employees Benefits : Separate fund for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners' Medical Scheme has been set up. The liability of Corporation on the account of such items is accounted for on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to fund on account of actuarial valuation is accounted as expenditure or income, as the case may be, of the Corporation in the year of addition or deletion. Encashment of Earned Leave by employees during the year is accounted as expenses in the same year.
8	Capital Construction Reserve : Capital Construction Reserve Fund (CCRF) has been declared as Non-Earmarked fund in 161st meeting of ESI Corporation held on 14th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 1. As per decision taken in 177th meeting of ESI Corporation held in February, 2019 , provision for CCRF is not to be made for 5 years. Still we are charging Work-In-Progress (WIP) from Capital Construction Reserve Fund. Balance in CCRF is reducing year by year.



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां

क्र.सं	1. लेखाओं पर टिप्पणी
1.1	वर्ष 2021-2022 के लिए क.रा.बी. निगम के लेखाओं को, लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर तैयार कर, वित्त मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सामान्य फॉर्मेट में, भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत कर एवं क.रा.बी. निगम द्वारा यथा अंगीकृत कर तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
1.2	वित्तीय विवरण लेखाकरण की प्रोद्भवन पद्धति के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तुलना की सुविधा हेतु, जहां भी आवश्यकता हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन किया जाता है।
1.3	पूर्व अवधि आय/व्यय को लेखाकरण मानक-5 (ए एस-5) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखाकरण किया गया है।
1.4	क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे तौर पर चिकित्सा सुविधा के प्रावधान हेतु वर्ष 2020-21 तक दिल्ली सरकार से वसूली योग्य कुल राशि ₹ 2650.92 करोड़ है। तथापि, दिल्ली सरकार अपने पत्र संख्या एफ-17(3)(1)/डीएचएस/जीआइए/2013/क.रा.बी.नि./52324, दिनांक 26.09.2014 द्वारा खर्च के 1/8 शेयर का भुगतान करने हेतु सहमत हुई थी परंतु दिनांक 31.03.2022 तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार से प्राप्ति का लेखाकरण, प्राप्ति के वर्ष में किया जाएगा। 29वीं उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक में क.रा.बी. निगम के देय का मामला उठाया गया तथा अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार को क.रा.बी. निगम को सहयोग देने का निदेश दिया। तदनुसार, दिल्ली सरकार स्वास्थ्य योजना (डीजीएचएस) को दिनांक 14.01.2020 को पत्र जारी किया जा चुका है।
1.5	किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिकता आरक्षित निधि (पूर्व में आपात आरक्षित निधि के रूप में ज्ञात) का सृजन किया गया है। दिनांक 27/28 नवम्बर, 1986 की स्थायी समिति और निगम की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस निधि में केवल शेष ₹ 75.00 करोड़ तक सीमित किया गया। चूंकि इस निधि में शेष ₹ 75.00 करोड़ था, अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
1.6	वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा योजना, के लिए प्रावधान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 37 के उपबंध तथा लेखाकरण मानक 15-कर्मचारी हितलाभ के सम्बन्ध में बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान स्थायी निःशक्तता हितलाभ निधि (पीडीबीएफ) तथा आश्रितजन हितलाभ निधि (डीबीएफ) के लिए प्रावधान भी बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। दिनांक 31.03.2022 की बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार स्थायी निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि तथा कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि- पेंशनभोगी चिकित्सा योजना क्रमशः ₹ 266.43 करोड़ तथा ₹ 15.21 करोड़ की आधिक्य राशि दर्शा रही हैं जिन्हें प्रोद्भवन लाभ के रूप में खातों में लिया गया है तथा उन्हें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के पैरा 7 के सम्बन्ध में विविध आय के रूप में दर्ज किया गया है। दिनांक 31.03.2021 को मूल्यांकन में कुछेक फाइलें गायब होने के कारण आश्रितजन हितलाभ देयताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण बीमांकन द्वारा न्यूनोत्ती हुई है।।

SCHEDULE 25 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

SI No	1. NOTES ON ACCOUNTS
1.1	The accounts of ESI Corporation for the year 2021-22 are prepared on accrual basis of accounting in the common format for Autonomous Bodies prescribed by Ministry of Finance, recommended by C &AG of India and as adopted by ESI Corporation and approved by Ministry of Labour and Employment, Government of India.
1.2	The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, as per the accrual method of accounting. The previous year figures are regrouped, wherever required, for convenience of comparisons.
1.3	Prior period income/ expenditure is accounted for as per guideline of Accounting Standards -5 (AS-5).
1.4	The total amount recoverable from Delhi Govt. towards provision of medical services directly by ESIC up to the year 2020-21 stands at ₹ 2650.92 crores. Govt of Delhi vide its letter no. F.17(3)(1)/DHS/GIA/2013/ESIC/52324 dated 26.09.2014 had agreed to pay 1/8th share of expenditure but the same is not paid till 31.03.2022 . Accounting of receipt from Delhi Government will be done in the year of receipt. In the 29th Northern Zonal Council meeting the matter of ESIC dues was taken up and the Chairperson directed the Delhi Government to contribute to ESIC. Accordingly a letter has been issued to the DGHS, Government of Delhi on 14.01.2020.
1.5	Contingency Reserve Fund (earlier known as Emergency Reserve Fund) has been created to meet any emergency situation. In pursuance of the decision of the Standing Committee and the Corporation taken in their meeting on 27/28th November, 1986, the balance in this fund is limited to ₹ 75.00 crores only. As the balance in this fund was ₹ 75.00 crores, no provision has been made.
1.6	The provision for Employees' Benefit Reserve Fund (EBRF) [Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme] during the year has been done on the basis of actuarial valuation in terms of Accounting Standard 15-Employees Benefit and provision of Sec 37 of Employees' State Insurance Act 1948. The provision for Permanent Disability Benefit Fund (PDBF) and Dependent Benefit Fund (DBF) during the year has also been done on the basis of actuarial valuation. As per actuarial valuation report - Permanent Disablement Benefit Reserve Fund and Employees' Benefit Reserve Fund - Pensioners Medical Scheme as on 31.03.2022 were showing an excess of ₹ 266.43 crore and ₹ 15.21 crore respectively, which have been accounted as an actuarial gain and booked as Miscellaneous income in terms of para 7 of the significant accounting policy. The reason for substantial changes in Dependent Benefit liabilities is under reporting by Actuary due to some missing files in valuation as on 31.03.2021.



वार्षिक लेखे 2021-2022

1.7	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) – पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा; योजना हेतु प्रावधान की प्रविष्टि बीमाकंक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:—				₹ करोड़ में
	अनुसूची	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) – पेंशन	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) – उपदान	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) – छुट्टी नकदीकरण	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) – पेंशनभोगी चिकित्सा योजना
	अनुसूची 20—क चिकित्सा हितलाभ	87.76	50.16	66.22	0
	अनुसूची 20—क चिकित्सा शिक्षा	3.00	2.13	3.17	0
	अनुसूची 21 स्थापना खर्च	53.98	31.19	39.06	0
	कुल	144.74	83.48	108.45	0
1.8	उद्दिष्ट आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज को अनुसूची 15 के अंतर्गत संबंधित आरक्षित निधि में जमा किया गया है तथा गैर उद्दिष्ट निधि पर ब्याज को आय एवं व्यय लेखा में निगम की आय के रूप में लिया गया है। क.रा.बी. निगम ने भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) के माध्यम से विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) में भी निवेश किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) ने दिनांक 6 अप्रैल 2022 के उनके पत्र संख्या फा.सं.—पी.ए.ओ./पत्राचार/क.रा.बी.नि./एम.एस./2021-22/17-19 द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति अनुसार विशेष जमा खाते (एस.डी.ए.) में ₹ 19,473.06 करोड़ के विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) का अंतशेष की पुष्टि की। विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज ₹ 1,290.93 करोड़ है। निवेश पर ब्याज और उद्दिष्ट तथा गैर-उद्दिष्ट निधि के लिए उनके नियतन का ब्योरा निम्नानुसार है :—				
	निवेश पर ब्याज (₹ करोड़ में)		नियतन (₹ करोड़ में)		
	विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज	1,290.93	उद्दिष्ट निधियां	2,049.76	
	मियादी जमा/ प्रतिभूतियों पर ब्याज/ लाभांश	6,982.43	गैर उद्दिष्ट निधियां	6,223.60	
	कुल	8,273.36	कुल	8,273.36	
1.9	क.रा.बी. निगम निधि का समेकित निवेश उद्दिष्ट तथा गैर उद्दिष्ट निधियों के लिए किया जाता है। कुल निवेश पर अर्जित ब्याज का नियतन, क.रा.बी. निगम भविष्य निधि के अलावा वित्तीय वर्ष के लिए निधि के आदि शेष के आधार पर निधियों में से किया जाता है। क.रा.बी. निगम भविष्य निधि के लिए ब्याज नियतन वर्ष के लिए अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है। ब्याज नियतन से अधिक अभिदाता लेखा के लिए जमा सामान्य भविष्य निधि ब्याज का आधिक्य सामान्य निधि अथवा सामान्य रिजर्व निधि को अंतरित किया जाता है।				
1.10	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. निगम की कुल निवेश राशि ₹ 1,25,222.09 करोड़ है जिसमें से विशेष जमा खाता में निवेश राशि ₹ 19,473.06 करोड़ है तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास मियादी जमा राशि ₹ 39.83 करोड़ (लीगसी मियादी जमा) है और दिनांक 31.03.2022 तक के अनुसार निवेश के रूप में सरंक्षक (कस्टोडियन) सहित निधि ₹ 1,05,709.20 करोड़ है। निवेश क.रा.बी. (केंद्रीय विनियम), 1950 के नियम 27 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) के उपबंध तथा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार किया गया है।				

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022



1.7	The provision for Employees' Benefit Reserve Fund (EBRF) - Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme has been booked on the basis of actual valuation as per details given below:- (₹ in crore)				
	Schedule	EBRF - Pension	EBRF - Gratuity	EBRF - Leave Encashment	EBRF - PMS
	Schedule 20-A Medical Benefits	87.76	50.16	66.22	0
	Schedule 20-A Medical Education	3.00	2.13	3.17	0
	Schedule 21 Establishment Expenses	53.98	31.19	39.06	0
	Total	144.74	83.48	108.45	0
1.8	Interest on investment of earmarked reserve fund has been credited to respective reserve fund under schedule 15 and Interest on non earmarked fund has been taken as income of the Corporation in Income & Expenditure Account. ESIC has also invested in Special Deposit Account (SDA) through Pay & Account Office(PAO), Ministry of Labour & Employment. PAO of Ministry of Labour & Employment has confirmed the closing balance of SDA of ₹ 19,473.06 crore as on 31.03.2022 vide their Letter No. F.No. PAO/Corres/ESIC/MS/2021-22/17-19 dated 06th April 2022. Interest on SDA is ₹ 1,290.93 crore. Detail of interest on investment and their allocation to earmarked and non-earmarked fund are as follows:-				
	INTEREST ON INVESTMENTS (₹ in crore)		ALLOCATION (₹ in crore)		
	Interest on SDA	1,290.93	Earmarked funds	2,049.76	
	Interest/ Dividend on Fixed Deposit/securities	6,982.43	Non-earmarked Funds	6,223.60	
	Total	8,273.36	Total	8,273.36	
1.9	Consolidated investment of ESIC Fund is done for Earmarked and Non-earmarked funds. Interest earned on total investment is allocated among the funds on the basis of opening balance of the fund for the financial year except for ESIC Provident Fund. Interest allocation to ESIC Provident Fund is done on the basis of actual interest credited to subscriber's GPF account for the year. Excess of GPF interest credited to Subscribers account over interest allocated is transferred from General Reserve Fund and vice- versa.				
1.10	The total investment of ESIC as on 31.03.2022 stands to ₹ 1,25,222.09 crore, out of which investment in Special Deposit Account is ₹ 19,473.06 crore and in fixed deposit with schedule commercial Banks ₹ 39.83 crore (Legacy FD) and Funds with custodian in the form of investment as on 31.03.2022 is ₹ 1,05,709.20 crore. Investment is done in accordance with provision of section 29(2) of the ESI Act, 1948, read with Rule 27 of ESI (Central Rules), 1950 and duly approved investment policy.				



वार्षिक लेखे 2021-2022

1.11	₹ 1,327.87 करोड़ का प्रशासनिक खर्च कुल राजस्व आय का 6.04% बनता है। इसमें कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण की देयताओं के लिए ₹ 124.23 करोड़ भी शामिल है।
1.12	क.रा.बी. निगम की दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित 161वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पूरक कार्यसूची मद संख्या 3 द्वारा पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज की गणना राजस्व आय के रूप में की गई है।
1.13	अनुसूची 20 क (1) में दर्शाए अनुसार राज्य सरकार को खातागत भुगतान में वर्ष 2012-13 से पहले गत वर्षों (जब लेखाकरण के नकद आधार का अनुसरण किया जाता था) के लिए राज्य सरकार को किए गए भुगतान शामिल करता है, जिसके लिए वर्ष 2021-2022 में लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। बीमाकृत व्यक्तियों तथा परिवार के लिए चिकित्सा देखरेख पर व्यय हेतु राज्य सरकार को भुगतान, उच्चतम सीमा प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई के शर्ताधीन राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। (वर्ष 2018-19 के लिए यह उच्चतम सीमा ₹ 3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई है)। इसके अतिरिक्त, दिनांक 19.02.2019 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित उच्चतम सीमा तक क.रा.बी. योजना के संचालन पर होने वाले पूरे व्यय का वहन, वर्ष 2019-2020 से तीन वर्षों के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा किया जा रहा है।
1.14	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए धारा 45क के अंतर्गत कालातीत मामलों की अनंतिम राशि 597 मामलों में ₹ 483.88 करोड़ है।
1.15	क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 37 के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित, परिसंपत्तियों तथा देयताओं का मूल्यांकन मूल्यकार द्वारा किया जा चुका है तथा स्थायी निःशक्तता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान किया जा चुका है।
1.16	पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि अस्पतालों, औषधालयों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों आदि के निर्माण के लिए है और अंशदान का एक प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक इस निधि में अंतरित किया जा रहा था, हालांकि ऐसे नियतन पर 5 वर्षों के अधिस्थगन के लिए दिनांक 19.02.2019 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 177वीं बैठक के निर्णय के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
1.17	वस्तु (संपत्ति) सूची के शेष माल पर एफ.आइ.एफ.ओ. पद्धति से मूल्यांकन किया जाता है।
1.18	नियत परिसंपत्ति आंतरिक मालभाड़ा, शुल्क और कर तथा आकस्मिक व्ययों के सम्मिलित उपार्जन के लागत पर निश्चित की जाती है।
1.19	कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज नकद आधार पर मान्य किए जाते हैं।
1.20	पूर्वावधि वस्तुएं (आय एवं व्यय) अनुसूची-26 लागू लेखाकरण मानक के अनुपालन में वर्गीकृत है।

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022



1.11	Administrative Expenses of ₹ 1,327.87 crore works out as 6.04 % of the Total Revenue Income. This includes ₹ 124.23 crore towards provision of liability of Employee's Benefit Reserve Fund - Pension, Gratuity and Leave Encashment.
1.12	Interest on investment of Capital Construction Reserve Fund (CCRF) has been accounted for as Revenue Income as per decision taken in 161st meeting of ESI Corporation held on 14th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 3.
1.13	On account payment to State Government as shown in schedule 20 A (1) includes payment to State Government for past years before 2012-13 (when cash basis of accounting was followed), for which audit certificate is received in 2021-22. Payment to State Govt towards expenditure on medical care for Insured Persons (IP's) and family is made on the basis of no. of IP's in the State subject to the ceiling per IP family unit. (For 2018-19, this ceiling is ₹ 3000/- per IP family unit). Further, as per the decision taken in the 177th meeting of the Corporation held on 19.02.2019, the entire expenditure on running the ESI Scheme, up to the prescribed ceiling, are being borne by the ESIC for three years starting from 2019-20.
1.14	The tentative amount of time barred cases u/s 45 A for the financial year 2021-22 is ₹ 483.88 crore involving 597 cases.
1.15	As per Section 37 of The ESI Act, 1948 , as amended time to time, valuation of assets and liabilities has been carried out by valuer and provision for Permanent Disablement Benefit, Dependent Benefit, Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme has been done.
1.16	Capital Construction Reserve Fund is for construction of hospitals, dispensaries, Office buildings, staff quarters, etc and one percent of Contribution was being transferred to this fund up to FY 2017-18, however, no provision has made during current financial year also as decided 177th meeting of ESI Corporation held on 19.02.2019 to have a moratorium of 5 years on such allocation.
1.17	Inventory has been valued on FIFO method on closing stock.
1.18	Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and Incidental expenses.
1.19	Interest on loan & Advances to employees is recognised on cash basis.
1.20	Prior Period Items (Income & Expenditure) Schedule- 26 are classified in compliance of applicable accounting standard.



वार्षिक लेखे 2021-2022

1.21	धोखाधड़ी मामले
	<p>मातृत्व हितलाभ मामला, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा : विशेष लेखा परीक्षा अवधि के लिए किए लेखा परीक्षा में ₹ 4,99,86,791/- की धोखाधड़ी के लिए 1014 मामलों में से 21 मामलों में ₹ 1582126/- की राशि की धोखाधड़ी सतर्कता जांच में पाई गई। दिनांक 29.12.2020 को ऐसे अधिकारियों और अन्य के विरुद्ध सीबीआई/एसीबी, चंडीगढ़ में प्रथम सूचना रपट (एफआईआर) दर्ज की गई। इसके साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद में 13 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई में आगे की जांच और अनुशासनिक प्रक्रिया चल रही है और 14 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। एक अन्य विशेष लेखा रिपोर्ट वर्ष 2013-15 में 1097 मामलों में ₹ 3,90,63,182/- की राशि की धोखाधड़ी पता चली है। इस मामले में 05 कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मामला सीबीआई के सुपुर्द किया गया है और आगे कार्रवाई तब की जाएगी जब मामले में सीबीआई जांच पूरी हो जाएगी। वसूली कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद को विधिक राय और सीबीआई से परामर्श लेने के लिए अनुरोध किया गया है।</p>
	<p>मातृत्व हितलाभ मामला, उप क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब : वर्ष 2016-19 की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ₹ 1220149/- की राशि के धोखाधड़ी के 33 मामले पाए गए। जांच क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब द्वारा की गई। अनुशासनिक प्रक्रिया के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि मामले में कुल ₹ 1205033/- की राशि वसूली की गई है। मामले में लिप्त पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध 09 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 03 मसौदा आरोप पत्र पुनरीक्षण के लिए जारी किए गए हैं। 05 नियोक्ताओं में से 04 नियोक्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रपट (एफआईआर) दर्ज की गई है। ₹ 15116/- की वसूली लंबित है। आर्थिक अपराध स्कंध (ईओडब्ल्यू), लुधियाना से अनुरोध किया गया है कि मामले में आगे की कार्रवाई में समय-समय पर अद्यतन स्थिति से प्रस्तुति करते रहें।</p>
	<p>शाखा कार्यालय, कादी, गुजरात में धोखाधड़ी की सूचना : अप्रैल से दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान शाखा के श्री प्रिय चक्रवर्ती, सहायक/दावा लिपिक द्वारा क.रा.बी. खाता संख्या-2 में धोखाधड़ी का मामला सामने आया जिसमें ₹ 1415090/- की राशि है। 64033 रुपये की राशि वसूल की गई है। क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है। एक कार्मिक को निलंबित किया गया है और 11 आरोप-पत्र जारी किए गए हैं। गबन की गई राशि की वसूली के लिए विधिक राय (लीगल ओपिनियन) वकीलों से लिया गया है और विचाराधीन है। मामले में प्रथम सूचना रपट (एफआईआर) दाखिल करने के लिए मामले पुलिस प्राधिकरण के साथ देखा जा रहा है।</p>
	<p>मातृत्व हितलाभ मामला, शाखा कार्यालय, बोम्मसांद्रा, कर्नाटक : वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान मातृत्व हितलाभ के धोखाधड़ी के 71 मामलों में ₹ 5268144/- की राशि की धोखाधड़ी सतर्कता आयोग, दक्षिण अंचल द्वारा पाई गई है। दिनांक 11.06.2021 को जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय निदेशक, कर्नाटक के अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की गई है। 7 अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। सीबीआई, एसीबी बंगलुरु के पास श्री बसंत कुमार के., सहायक की शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पीण्पा से कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलौर स्थानांतरित भी किया गया है। सीबीआई, एसीबी बंगलुरु को जांच में सहयोग देने के लिए विभिन्न बैंकों को पत्र जारी किए गए हैं कि वे श्री बसंत कुमार के., सहायक बैंक खातों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। कार्यालय सीबीआई, एसीबी बंगलुरु के लगातार संपर्क में है और सीबीआई अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलुरु के दौरे किए हैं और अपनी जांच प्रक्रिया के लिए कुछ विवरण इकट्ठे किए हैं।</p>

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022



1.21	Fraud Cases :-
	Maternity Benefit Case, Regional Office Faridabad, Haryana:- Special Audit for the period 2016-19, revealed 1014 cases involving ₹ 4,99,86,791/- as fraud out of which 21 cases involving amount of ₹ 15,82,126/- was detected as fraud by vigilance investigation for the period 2016-19. FIR has been lodged with CBI/ACB, Chandigarh on 29.12.2020 against the officials and other involved. Also documents related to the matter were submitted on 09.06.2021 to CBI for further investigation and disciplinary action against 13 officials is under process at R.O., Faridabad and 14 Officials were placed under suspension. Further Special Audit Report of 2013-15 revealed 1097 cases involving amount of ₹ 3,90,63,182/- as fraud. Disciplinary action against 05 officials in this case is also under process. The matter is referred to CBI and further action will be taken after the CBI investigation is complete in the matter. RO Faridabad has been requested for taking legal opinion and consultation with CBI reg. the recovery action.
	Maternity Benefit Case, SRO Ludhiana, Punjab :- As per the special Audit Report for the period 2016-19, 33 cases of ₹ 12,20,149/- were detected as fraud. The Investigation was conducted by RO, Punjab. Disciplinary action as well as criminal action are under process. It is further intimated that total ₹ 12,05,033/- has been recovered in this case. 09 SCNs were issued against the officials involved in the case. 03 draft charge sheets were issued for vetting. Out of 05 employers, FIR against 04 employers have been lodged. The recovery of ₹15,116/- is pending. Economics Offence wing, Ludhiana has been requested to submit status of the case from time to time for further action in the matter.
	Fraud Reported at Branch Office, Kadi, Gujarat:- An amount of ₹ 14,15,090/- from ESIC Fund account No. 2 was fraudulently embezzled by Sh. Priy Chakravarti, Assistant/Claim Clerk of the Branch Office during the period April to December 2018. Amount of ₹ 64033/- has been recovered. Disciplinary proceedings have been initiated against the officials by the Regional Office, Gujarat. 01 official was suspended and 11 charge sheets were issued. The legal opinion regarding recovery of embezzled amount in fraud of Panel Advocate is obtained and is under consideration. The matter has been taken up with police authorities for filing of FIR in this case.
	Maternity Benefit Case, Branch Office Bommasandra, Karnataka :- 71 cases of fraudulent MB payments amounting to ₹ 52,68,144/- were detected during the period 2016-17, 2017-18 & 2018-19 by the vigilance unit, South Zone. Investigation Report dated 11.06.2021 has been submitted to RD, Karnataka for further necessary action. Disciplinary action has been taken against 07 officers/Officials. Complaint has been filed with CBI, ACB Bangalore against Sh. Vasanth Kr K, Assistant. He has also been transferred to ESIC SRO-Mangalore from ESIH, Peenya. Letters have been issued to various banks requesting bank account particulars in r/o Sh. Vasanth Kr. K, Assistant towards supporting the investigation being carried out by CBI, ACB, Bangalore. The office is in frequent touch with CBI, ACB Bangalore and the CBI Officers have visited RO-Bangalore and collected some details for their investigation process.



वार्षिक लेखे 2021-2022

	<p>निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली में धोखाधड़ी की सूचना : – श्री सतीश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक / रोकड़िया द्वारा 12.47 करोड़ रुपये की निधि का गबन किया गया है। जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। मामला आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली में लंबित है। इस मामले में 9 अधिकारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। श्री सतीश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक / रोकड़िया को निगम की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया। श्री रविचंद्र, सहायक निदेशक को तत्कालीन प्रवर श्रेणी लिपिक श्री सतीश कुमार द्वारा गबन की गई राशि की शीघ्र जांच और उसकी वसूली के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ बैठक करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उक्त अधिकारी (सहायक निदेशक) ने अपने जवाब में कहा है कि आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा प्रतिनियुक्त जांच अधिकारी (श्री रविंदर) ने सूचित किया है कि पुलिस द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया है। उन्होंने सूचित किया कि गबन की गई राशि की वसूली नहीं हो सकी। निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली को मामले को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी राय लेने की सलाह दी गई है।</p>
	<p>लालरू शाखा कार्यालय में धोखाधड़ी : – 42.48 लाख रुपये की राशि की धोखाधड़ी की सूचना मिली थी। मामले की जांच की गई। रोकड़िया और 02 शाखा प्रबंधकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गई। रोकड़िया पुलिस हिरासत में था तथा उन्हें पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जमानत पर रिहा किया गया था। जांच की कार्यवाही जारी है। अभी तक कोई वसूली नहीं हुई है। शाखा कार्यालय, लालरू में गबन की गई राशि के संबंध में विधि काउंसल से विधिक राय ली गई। काउंसल की राय के अनुसार वसूली कार्रवाई के लिए अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन कोर्ट, डेराबस्सी, पंजाब में वसूली वाद दायर किया गया है।</p>
	<p>आदित्यपुर, गोलमुरी एवं रांची, झारखंड में मातृत्व हितलाभ प्रकरण: – संदिग्ध अनियमित भुगतान की राशि ₹ 18,22,199/-की है। अनियमित भुगतान में संदिग्ध पाए गए सभी 05 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गई। मामले को जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, रांची ने यह कहकर मामला वापस कर दिया था कि मामला छोटे-मोटे मामले की श्रेणी में आता है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में जांच के योग्य नहीं है। तदनुसार, मामले को आगे की कार्रवाई के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड राज्य को सौंप दिया गया है। मामले में आगे वसूली कार्रवाई करने के लिए अधिवक्ता से भी कानूनी राय ली गई है।</p>
	<p>उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा में धोखाधड़ी की सूचना : – वित्त एवं लेखा शाखा, मुख्यालय ने श्री एम. राज कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक, शाखा कार्यालय, तनुका द्वारा की गई धोखाधड़ी की सूचना दिनांक 03.12.2014 को दी। उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा ने दिनांक 25.11.2014 से 28.11.2014 की अवधि के दौरान शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया है। निगम निधि के गबन के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा दल से सूचना प्राप्त होने पर श्री एम राज कुमार पी. को दिनांक 03.09.2015 को आरोप पत्र जारी किया गया। इसके अलावा, अमृतलीला, शाखा प्रबंधक (प्रभारी) पर आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद दिनांक 14.09.2016 को 2 वर्ष के लिए 02 चरणों में वेतन की कटौती का जुर्माना लगाया गया। श्री जी. हनुमन्ना, शाखा प्रबंधक पर लापरवाही, सत्यनिष्ठा के अभाव के लिए दिनांक 23.06.2016 को आरोप पत्र दायर किया गया। श्री एम. राज कुमार, संबंधित प्रवर श्रेणी लिपिक को दिनांक 07.02.2017 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा, श्री एम. राज कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक को 03 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। राजस्व वसूली अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा ने सूचित किया है कि श्री एम. राज कुमार के बैंक खातों से ₹ 2,93,683/- की वसूली की गई है। ₹ 29,49,698/- की हेराफेरी के बारे में न्यायालय का फैसला मौन है। उप क्षेत्रीय कार्यालय को मामले में विधिक राय प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।</p>

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022



<p>Fraud reported at Director(Medical) Delhi:- Embezzlement of fund of ₹ 12.47 Cr by Sh. Satish Kumar, UDC/Cashier for which he was charge sheeted by Delhi Police and case is pending with economic offence wing, Delhi. 9 officers/officials were charge sheeted in this case & Sh. Satish Kumar, UDC/Cashier dismissed from services of the Corporation. Shri Ravi Chandra, AD was deputed to hold a meeting with Senior Police Officer for early investigation and recovery of embezzled amount, embezzled by Shri Satish Kumar, the then UDC. The said Officer (AD) vide his reply submitted that the IO (Shri Ravinder), deputed by Economic Offence Wing, Delhi Police, has informed that charge sheet has been filed in Rouse Avenue Court by Police and they informed that the embezzled amount could not be recovered. The D(M)D has been advised to take the legal opinion for pursuing the matter further.</p>
<p>Fraud at Lalru Branch Office under RO Punjab:- Fraud amounting to ₹ 42.48 lakh was reported. The matter was investigated and disciplinary action was initiated against the cashier and 02 Branch Managers. Cashier was under police custody and was released on bail by the orders of honorable High court of Punjab and Haryana and the enquiry proceedings are going on. No recovery has been affected till date. A legal opinion was obtained from the legal counsel in respect of the amount embezzled at Branch Office, Lalru. As per the opinion of counsel the Recovery suit has been filed in Additional Civil Judge Senior Division Court, Derabassi, Punjab for further recovery action.</p>
<p>Maternity Benefit Case at Branch Office, Adityapur, Golmuri and Ranchi Jharkhand:- The amount of suspected irregular payment comes to ₹ 18,22,199/-. Disciplinary action initiated against all 05 Officials who were found suspected in irregular payment. The case was referred to CBI for investigation. CBI/ACB Ranchi had returned the case by stating that the case falls under the category of Petty Case and does not merit in CBI probe. Accordingly, the matter has been handed over to ACB, State of Jharkhand for further action. Legal opinion has also been obtained from advocate for taking further recovery action in the matter.</p>
<p>Fraud reported at SRO Vijaywada:- Finance and Account branch, Hqrs Office informed about the fraud committed by Sh. M. Raj Kumar, UDC at Branch Office, Tanuka on 03.12.2014. SRO Vijaywada has conducted inspection of BO during the period 25.11.2014 to 28.11.2014. On receipt of information from Internal Audit Team regarding embezzlement of corporation funds, Charge sheet dated 03.09.2015 issued to Sh. M Raj Kumar. P. Further, Amritleela, Branch Manager(I/c) was charge sheeted followed by penalty of reduction of Pay by 02 stages for 2 years on 14.09.2016. Sh.G.Hanumanna, Branch Manager was charge sheeted for negligence, lack of integrity on 23.06.2016. Sh. M Raj Kumar, concerned UDC was dismissed from service on 07.02.2017. Further in the criminal case Sh.M Raj Kumar, UDC was imposed the penalty of 03 years of imprisonment and fine of ₹ 10,000/-. The Revenue Recovery Officer, RO Vijayawada has informed that an amount of ₹ 2,93,683/- has been recovered from the bank accounts of Sri.M. Raj Kumar. The court judgement is silent about the misappropriation amount of ₹ 29,49,698/-. The SRO has been requested to take further action after obtaining the Legal opinion in the matter.</p>



वार्षिक लेखे 2021-2022

1.22	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने ₹ 15,308.98 करोड़ की अंशदान आय प्राप्त की जिसमें से ₹ 239.94 करोड़ की राशि वर्ष 2021-22 से पूर्वावधि अंशदान संबंधी है।	
1.24	क्षेत्र लेखा इकाइयों द्वारा गलत वर्गीकरण के कारण कर्मचारी के स्थानांतरण पर वेतन की अग्रिम और मोटरकार अग्रिम नकारात्मक शेष दर्शा रहा है। इन शीर्षों के वर्गीकरण करने के लिए प्रयास जारी है।	
1.25	अनुसूची-8 (रिजर्व परिसंपत्तिया) तथा अनुसूची-1 (पूँजीगत रिजर्व) में ₹ 1.00 की दर से ओ.बी.एस. परिसंपत्तियां प्रारंभिक परिसंपत्तियां दर्शाती है जिन्हें मार्च, 2012 तक नकद आधार पर लेखाकरण में राजस्व खर्च के रूप में बुक किया गया है, वर्ष 2012-13 के दौरान नकद आधार पर लेखाकरण से प्रोद्भूत आधार पर लेखाकरण तक, जो कि क.रा.बी. निगम की लेखाकरण नीति के अनुसार अनुमोदित है, से अंतरण करते समय प्रारंभिक तुलन-पत्र (ओबीएस) में ₹ 1.00 प्रति परिसंपत्ति के रूप में बुक किया गया है।	
1.26	सामान्य भविष्य निधि खाता तथा वार्षिक खाता अनुसार सामान्य भविष्य निधि शेष के बीच अंतर, वर्ष 2012-13 में लेखाकरण के नकद आधार से प्रोद्भूत आधार पर लेखाकरण तक स्विच करने के समय उत्पन्न हुए अंतर को दर्शाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान मार्च, 2013 के वेतन हेतु प्रावधान का लेखाकरण, सामान्य भविष्य निधि कटौती सहित मार्च, 2013 में किया गया जबकि सामान्य भविष्य-निधि खाता में वास्तविक सामान्य भविष्य निधि प्रविष्टि अप्रैल, 2013 में की गई।	
1.27	दिनांक 31.03.2022 तक के अनुसार अंशदान तथा ब्याज की बकाया राशि की वसूली के लिए ₹ 5,029.42 करोड़ की राशि शेष है जिसमें से विभिन्न कारणों से वर्तमान देय के लिए ₹ 2,608.63 करोड़ वसूली योग्य नहीं है। ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-	
	वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि	₹ करोड़ में
	क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि	1,746.83
	ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि	284.66
	ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	9.11
	घ) बंद तथा जिन नियोक्ता का अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों/स्थापनों से देय राशि	323.61
	ड) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई, पर निष्पादित नहीं की गई है	1.59
	कुल क	2,365.80
	रुग्ण उद्योगों से देय राशि	
	उन कारखानों/स्थापनाओं से संबंधित मामले जो बी.आइ.एफ.आर./एन.सी.एल.टी. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है।	156.68
	कारखाने/स्थापनाएं जो रुग्ण घोषित की गई हैं और पुनर्वास योजना बी.आइ.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।	86.15
	कुल ख	242.83
	दिनांक 31.03.2022 तक के अनुसार वसूली योग्य देय राशि	
	क) नियोक्ताओं का पता-ठिकाना पता है परंतु इकाई बंद है।	132.30
	ख) वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि	2,288.49
	कुल ग	2,420.79
	कुल योग (क+ख+ग)	5,029.42

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022



1.22	The Corporation has received the Contribution Income of ₹15,308.98 Crore during financial year 2021-22 and out which an amount ₹ 239.94 crore pertains to contribution periods prior to 2021-22.	
1.24	Advances of Pay on Transfer of employees and Motor Car Advance is showing negative balance due to misclassification by field accounting units. Efforts for classification under these heads are undergoing.	
1.25	Assets in OBS @ ₹ 1.00 in Schedule- 8 (Fixed Assets) and Schedule-1 (Capital Reserve) represents opening assets ,booked as revenue expenditure in cash basis of accounting up to March, 2012, booked at ₹ 1.00 per assets in Opening Balance Sheet (OBS) during 2012-13 at the time of switching from cash basis of accounting to accrual basis of accounting as per approved accounting policy of ESIC.	
1.26	The difference between GPF balance as per GPF Accounts and Annual Accounts represents difference arisen at the time of switching from cash basis to accrual basis of accounting in the year 2012-13. During the year 2012-13 accounting of provision for Salary of March, 2013 was done in March, 2013 along with GPF deductions where as actual GPF posting in GPF Accounts in April, 2013.	
1.27	An amount of ₹ 5029.42 crores is outstanding for recovery of arrears of contribution and interest as on 31.03.2022 out of which ₹ 2608.63 crore is not recoverable for the present due to various reasons. The details are as below:-	
	Arrears not recoverable for the present	₹ in crores
	a) Amount of arrears disputed in courts	1,746.83
	b) Amount under liquidation.	284.66
	c) Amount pending with claim commissioner	9.11
	d) Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.	323.61
	e) Amount for which decree obtained but not executed	1.59
	TOTAL A	2,365.80
	Dues from sick industries	
	i) Cases in respect of Factories/Estts. Registered with BIFR/NCLT but rehabilitation scheme yet to be sanctioned	156.68
	ii) Factories/Establishments which have been declared sick but rehabilitation scheme has been sanctioned.	86.15
	TOTAL B	242.83
	Recoverable dues as on 31.03.2022	
	a) Employers whereabouts known but unit is closed	132.30
	b) Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer	2,288.49
	TOTAL C	2,420.79
	GRAND TOTAL (A+B+C)	5,029.42



वार्षिक लेखे 2021-2022

1.28	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क.रा.बी. निगम ने निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत कोविड संक्रमण/संचरण को रोकने तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क.रा.बी. निगम अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालय परिसरों में अलग सुविधाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के साथ करार के अंतर्गत ₹ 2.20 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया।
1.29	कोविड-19 महामारी का प्रकोप होने पर, क.रा.बी. निगम के अस्पताल आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के उपबंधों के अंतर्गत कोविड-19 समर्पित अस्पताल के रूप में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। इन अस्पतालों को सभी अवसंरचना एवं सुविधाओं और चिकित्सकों और स्टाफ सहित अधिग्रहित किया गया था। कोविड महामारी से संबंधित उपचार के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से देय राशि को अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक किया गया। इसके अतिरिक्त महामारी की अवधि के दौरान क.रा.बी. निगम के अस्पतालों को जहां कोविड समर्पित अस्पताल के रूप में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है, वहां क.रा.बी. निगम प्राप्त होने वाले दावों के प्राक्कलन की जांच कर रहा है।
1.3	न्यायालय के अधिनिर्णय के दृष्टिगत वर्ष 2020-2021 के दौरान, पीएफआरडीए से 11 कर्मचारियों के संबंध में निधियां प्राप्त की गई थीं, उन्होंने नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) से पुरानी पेंशन योजना में प्रवास का प्रयोग किया है। इसके कारण क.रा.बी.निगम ने ₹ 1.39 करोड़ के सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर ₹ 93 लाख की ब्याज देयता निर्धारित की है, जिसे इस प्रकार के मामलों में सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दिया गया है। कुछ कर्मचारियों के लिए पीएफआरडीए से निधियां प्राप्त होनी हैं जिन्हें बाद के वर्षों में खातों में लिया जाएगा।
2	आकस्मिक देयताएं
2.1	मैसर्स विप्रो ने क.रा.बी. निगम के विरुद्ध ₹ 963.13 करोड़ लगभग की राशि का दावा करते हुए माध्यस्थम् (विधि) केस दर्ज किया था। क.रा.बी. निगम ने भी सेवाओं में कमी और परिवर्तन के गैर-प्रावधान के कारण ₹ 214.22 करोड़ लगभग का प्रतिदावा दायर किया है। ₹ 553 करोड़ लगभग के लिए क.रा.बी. निगम के विरुद्ध फरवरी 2019 में माध्यस्थम् का पचांट प्राप्ति हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय में पचांट को अपास्त करने के लिए आवेदन दर्ज किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशानुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 11.02.2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक के पास पचांट की राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ₹ 138,28,79,937/- (एक सौ अड़तीस करोड़ अड़्हाईस लाख उन्यासी हजार नौ सौ सैंतीस रुपये मात्र) जमा किए हैं। इसके अलावा, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.12.2021 के आंशिक अनुपालन में ₹ 276,57,59,874/- (दो सौ छिहतर करोड़, सत्तावन लाख, उनसठ हजार, आठ सौ चौहत्तर रुपये केवल) अर्थात् पचांट राशि (अर्थात् ₹ 553,15,19,748.18/-) की 50 प्रतिशत राशि इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक के पास कुल ₹ 414,86,39,811/- (अर्थात् ₹ 553,15,19,748.18/- की पचांट राशि का 75 प्रतिशत) जमा करवा दी गई है। इस राशि को बही खाते में विशेष अग्रिम/जमा के रूप में दर्ज किया गया था।
2.2	क.रा.बी. निगम के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में प्राप्ति/स्वीकार नहीं किया गया—राजस्व मामलों के लिए क.रा.बी. निगम के विरुद्ध मामलों की राशि ₹ 162.67 करोड़ है जिसमें 1324 मामले शामिल हैं।
3	पूंजी प्रतिबद्धताएं
3.1	दिनांक 31 मार्च, 2022 को स्थिति के अनुसार गैर-निष्पादित पूंजी अनुबंध की राशि ₹ 4,409.87 करोड़ है।
4	विदेशी मुद्रा लेन-देन
4.1	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई व्यय नहीं किया गया है।
5	दिनांक 31 मार्च, 2022 तक के तुलन-पत्र के साथ अनुसूची 1 से 26 संलग्न की जाती है जो इसका एक अभिन्न भाग है तथा वर्ष की आय और व्यय लेखा इसी तिथि को समाप्त हुई।

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022



1.28	During the financial year 2021-22 the ESIC received grants of ₹ 2.20 crore under an agreement with Central PSUs for setting up of separate facilities within ESIC hospital/medical college premises for preventing COVID infection / transmission and promoting health under Corporate Social Responsibility (CSR) initiative.
1.29	On the outbreak of pandemic COVID-19, the Hospitals of ESIC were acquired by State Governments/UTs as dedicated COVID19 hospital under the provisions of Disaster Management Act 2005. These hospital were acquired along with all infrastructure & amenities including doctors & staff. Amount due from State/UTs for COVID related treatment has been booked under Other receivables. Further, the ESIC is examining estimation of claims to be received wherever Hospitals of ESIC are being acquired by the State Governments / UTs as dedicated COVID Hospital during the pandemic period.
1.3	In view of court judgement, during the year 2021-22, funds in respect of 11 employees were received from PFRDA , those have exercised migration from New Pension Scheme (NPS) to old pension scheme. On account of this, ESIC has determined the interest liability of ₹ 93 lakhs on GPF contribution of ₹ 1.39 crore, which have been transferred in the General Provident Fund Account in such cases. Still funds are yet to be received from PFRDA for some employees which will be accounted in subsequent year.
2	CONTINGENT LIABILITIES
2.1	M/s Wipro had filed an arbitration case claiming an amount of ₹ 963.13 crores (approx.) against ESIC. ESIC had also filed a counter claim for ₹ 214.22 Crore (approx.) on account of deficiency in deliveries and non-provision of transition. Award of the arbitration had been received in February 2019 against ESIC for ₹ 553 Crores (approx.). An application to set aside the award had been filed in Delhi High Court. As directed by the High Court of Delhi, with the approval of Hon'ble Chairman, ESIC, ESIC deposited ₹ 138,28,79,937/- (i.e. 25% of awarded amount) with the Registrar General of the Delhi High Court on 11.02.2020. Further, an amount of ₹ 276,57,59,874/- (Rupees Two Hundred Seventy six Crores Fifty seven Lakhs Fifty Nine Thousand Eight Hundred and Seventy four only) i.e. 50% of the award amount (i.e. ₹ 553,15,19,748.18/-) has deposited with the Registrar General of Delhi High Court, in partial compliance to the Hon'ble Delhi High Court Order dated 07.12.2021. Thus, total ₹ 414,86,39,811/- (i.e. 75% of the award amount of ₹ 553,15,19,748.18/-) has been deposited with the Registrar General of Delhi High Court). The same was booked as special advance/ Deposits in books of accounts.
2.2	Claims against ESIC not acknowledged as Debt - Cases filed against ESIC for revenue matters is amounting to ₹ 162.67 crore involving 1324 cases.
3	CAPITAL COMMITMENTS
3.1	Capital Contract remain unexecuted as on 31st March 2022 is amounting to ₹ 4,409.87 crore.
4	FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS
4.1	No expenditure in foreign currency has been incurred during the financial year 2021-22.
5	Schedule 1 to 26 are annexed to and forming integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2022 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.



वार्षिक लेखे 2021-2022

अनुसूची 26 – पूर्वावधि मदें

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
क) पूर्वावधि आय	3.60	8.17
ख) पूर्वावधि खर्च	(227.58)	(12.42)
कुल	231.18	20.59



Schedule 26 – Prior Period Items

₹ in crore

Particulars	2021-22	2020-21
a) Prior Period Income	3.60	8.17
b) Prior Period Expenditure	(227.58)	(12.42)
Total	231.18	20.59



वार्षिक लेखे 2021-2022

निवेश - उद्दिष्ट आरक्षित निधियां

₹ करोड़ में

संलग्नक - I

क्रम सं.	विवरण उद्दिष्ट निधियां	अथ शेष 01.04.2021	वर्ष के दौरान प्राप्तियां			निधि का अंतरण	निधि से भुगतान	वर्ष के दौरान निवल परिवर्धन ज=(ग+घ+ङ-च-छ)	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार शेष
			प्रवधान/प्राप्तियां (ग)	निवेश पर ब्याज (घ)	सामान्य आरक्षित/अन्य प्राप्ति से अंतरण (ङ)				
	क	ख							
1	स्थायी निःशुल्क हितलाभ आरक्षित निधि	8,517.26	(266.43)	606.14	-	-	323.01	16.71	8,533.97
2	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	2,918.03	3,414.25	207.67	-	-	324.89	3,297.02	6,215.05
3	क.रा.बी.नि.- कोविड-19 राहत योजना निधि	-	501.66	-	-	-	48.50	453.17	453.17
4	कार्यालय भवनों/स्टाफ कवाटरों की मूल्यहास आरक्षित निधि	16.58	7.32	1.18	-	-	24.94	(16.44)	0.14
5	अस्पताल भवनों की मूल्यहास आरक्षित निधि	1,280.65	80.42	91.14	-	-	69.19	102.38	1,383.03
6	अन्य परिसंपत्तियों की मूल्यहास आरक्षित निधि	1,800.77	370.74	128.15	-	-	-	498.89	2,299.66
7	चिकित्सा शिक्षा भवनों के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि	615.86	173.85	43.83	-	-	-	217.68	833.54
8	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि- पेंशन	10,670.51	144.74	759.38	17.01	-	506.26	414.87	11,085.38
9	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - उपदान	825.73	83.48	58.76	-	-	64.17	78.08	903.81
10	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - छुट्टी नकदीकरण	812.91	108.45	57.85	-	-	30.88	135.42	948.33
11	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि- पी.एम.एस.	201.32	(15.21)	14.33	2.65	-	16.64	(14.86)	186.46
12	क.रा.बी.नि. भविष्य निधि	1,176.83	164.10	81.31	-	-	200.54	44.88	1,221.71
	कुल	28,836.45	4,767.38	2,049.76	19.66	--	1,609.01	5,227.78	34,064.23

ANNUAL ACCOUNTS 2021-2022



सत्यमेव जयते



Investment – Earmarked Reserve Funds

₹ in crore

Annexure-I

Sl. No.	Particulars Earmarked Funds	Opening Balance 01.04.2021	Receipts during the year			Transfer the fund	Payment from the fund	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2022
			Provision / Receipts (C)	Interest on Investment (D)	Transfers from General Reserve/ Other receipt (E)				
1	Permanent Disablement Benefit Reserve Fund	8,517.26	(266.43)	606.14	-	-	323.01	16.71	8,533.97
2	Dependent's Benefent Reserve Fund	2,918.03	3,414.25	207.67	-	-	324.89	3,297.02	6,215.05
3	ESIC Covid-19 Relief Scheme Reserve Fund	-	501.66	-	-	-	48.50	453.17	453.17
4	Depreciation Reserve Fund of Office buildings and Staff quarters	16.58	7.32	1.18	-	-	24.94	(16.44)	0.14
5	Depreciation Reserve Fund of hospital buildings	1,280.65	80.42	91.14	-	-	69.19	102.38	1,383.03
6	Depreciation Reserve Fund of other Assets	1,800.77	370.74	128.15	-	-	-	498.89	2,299.66
7	Depreciation reserve fund for Medical Education Building	615.86	173.85	43.83	-	-	-	217.68	833.54
8	Employees Benefit Reserve Fund-Pension	10,670.51	144.74	759.38	17.01	-	506.26	414.87	11,085.38
9	Employees Benefit Reserve Fund-Gratuity	825.73	83.48	58.76	-	-	64.17	78.08	903.81
10	Employees Benefit Reserve Fund-Leave Encashment	812.91	108.45	57.85	-	-	30.88	135.42	948.33
11	Employees Benefit Reserve Fund-P M S	201.32	(15.21)	14.33	2.65	-	16.64	(14.86)	186.46
12	ESIC Provident Fund	1,176.83	164.10	81.31	-	-	200.54	44.88	1,221.71
	Total	28,836.45	4,767.38	2,049.76	19.66	--	1,609.01	5,227.78	34,064.23



वार्षिक लेखे 2021-2022

निवेश - गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधियां

संलग्नक - II

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2021	वर्ष के दौरान निवेश	सीसीआरएफ/ अन्य निधियों से अंतरण	उद्दिष्ट निधियों को अंतरण	वर्ष के दौरान निवल जोड़	दिनांक 31.03. 2022 की स्थिति के अनुसार तक शेष
	क	ख	ग	घ	ङ	च=(ग+घ-ङ)	छ=(ख+च)
I	सामान्य आरक्षित निधि	80,365.36	8,968.77	493.62	5,227.78	4,234.60	84,599.96
	कुल क	80,365.36	8,968.77	493.62	5,227.78	4,234.60	84,599.96
क्र.सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2021	वर्ष के दौरान प्रावधान	अन्य निधियों से अंतरण	निधि से मुगतान	सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित निवल जोड़	दिनांक 31.03. 2022 तक शेष
	क	ख	ग	घ	ङ	च=(ङ-ग)	छ=(ख-च)
II	आकस्मिकता आरक्षित निधि	75.00	-	-	-	-	75.00
III	पूजीगत निर्माण आरक्षित निधि	6,976.51	-	-	493.62	493.62	6,482.89
	कुल ख	7,051.51	-	-	493.62	493.62	6,557.89
	कुल योग (क+ख)	87,416.87					91,157.85

Investment – Non Earmarked Reserve Funds

Annexure-II

₹ in crore

Sl. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2021	Investment during the year	Transfers From CCRF/Other Funds	Transfer to Earmarked Funds	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2022
	a	b	c	d	e	f = (c+d-e)	g = b+f
I	General Reserve Fund	80,365.36	8,968.77	493.62	5,227.78	4,234.60	84,599.96
	Total A	80,365.36	8,968.77	493.62	5,227.78	4,234.60	84,599.96
SL. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2021	Provision During the year	Transfers From Other Funds	Payments from the fund	Net Addition transferred to General Reserve Fund	Balance as on 31.03.2022
	a	b	c	d	e	f = (e-c)	g = b-f
II	Contingency Reserve Fund	75.00	-	-	-	-	75.00
III	Capital Construction Reserve Fund	6,976.51	-	-	493.62	493.62	6,482.89
	Total B	7,051.51	-	-	493.62	493.62	6,557.89
	Grand Total (A+B)	87,416.87					91,157.85



सत्यमेव जयते



एन. सी. ई. सी.
ESIC
SOCIAL SECURITY



वार्षिक लेखे 2021-2022

वर्ष 2021-2022 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

₹ करोड़ में

प्राप्तियाँ	2021-22	2020-21	भुगतान	2021-22	2020-21
I अथ शेष			I व्यय		
क) नकद रोकड़	0.03	0.03	क) बीमाकृत व्यक्तियों के हितलामों पर खर्च (अनुसूची 20 के तदनुसूच)	11,494.63	9,732.46
ख) बैंक शेष	-	-	ख) स्थापना खर्च (अनुसूची 21 के तदनुसूच)	1,231.70	1,136.17
ग) ब्याज खातों में	-	-	ग) अन्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 22 के तदनुसूच)	351.84	314.85
घ) जमा खातों में	-	-	II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के निमित्त किए गए भुगतान		
ङ) बचत खाते	50.91	16.93	III किए गए निवेश और जमा		
च) धन प्रेषण	-	-	क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश	36,772.35	39,965.86
II प्राप्त किए गए अनुदान	-	-	IV स्थायी परिसंपत्ति पर खर्च और पूंजीगत कार्य की प्रगति		
क) भारत सरकार से	-	-	क) स्थायी परिसंपत्ति की खरीद	150.22	109.43
ख) राज्य सरकार से	-	-	ख) प्रगतितरील पूंजीगत कार्य पर खर्च	493.62	302.62
ग) अन्य स्रोतों से (विक्रण) (पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	-	-	V अधिशेष धन/ऋण की वापसी	-	-
III निवेश से आय	-	-	क) भारत सरकार को	-	-
क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश	8,093.67	7,816.47	ख) राज्य सरकार को	-	-
IV प्राप्त किए गए ब्याज	-	-	ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-
क) बैंक में जमा राशियों पर	10.67	13.44	VI वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
ख) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम	0.12	0.22	VII अन्य भुगतान (चरित्वाचित करें)	-	-
V निवेश-परिवर्तता	27,803.58	30,979.26	क) विशेष मरमत एवं अनुसूचण	40.93	13.04
VI आय-अंशदान	15,211.87	13,082.85	ख) तृतीय पक्ष अग्रिम	749.93	148.20
VII उधार राशि	-	-	ग) कर्मचारी अग्रिम	51.86	46.69
VIII कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)	-	-	घ) प्रतिभूतियां एवं अन्य जमा राशियां	82.98	75.85
क) जमा (प्रतिभूति/बयाना जमा/विक्रि)	75.99	32.95	ङ) पूर्व अवधि मदें	(210.61)	(10.77)
ख) विक्रित्ता शिक्षा प्राप्ति	30.94	35.82	च) कर्मचारी हितलाम (सामान्य भविष्य निधि, नई पेंशन योजना, जीएसएलआईएस इत्यादि)	529.57	462.71
ग) कर्मचारी हितलाम निधि (पेंशन अंशदान, पीएमएस प्राप्ति इत्यादि)	515.88	460.95	छ) सांख्यिक देय राशि एवं अन्य कटौतियां	(13.97)	11.84
घ) अन्य आय	397.69	1,293.68	VIII अंत शेष	-	-
	-	-	क) नकद रोकड़	0.02	0.03
	-	-	ख) बैंक शेष	-	-
	-	-	ग) ब्याज खातों में	-	-
	-	-	घ) जमा खातों में	-	-
	-	-	ङ) बचत खाते	52.74	50.91
	-	-	च) धन प्रेषण	413.55	1,372.67
कुल	52,191.35	53,732.58	कुल	52,191.35	53,732.58

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22

₹ in crore

RECEIPTS	2021-22	2020-21	PAYMENTS	2021-22	2020-21
I. Opening Balance			I. Expenses		
a) Cash in hand	0.03	0.03	a) Expenditure On Benefits To Insured Persons (corresponding to Schedule 20)	11,494.63	9,732.46
b) Bank Balances	-	-	b) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 21)	1,231.70	1,136.17
i) In current accounts	-	-	c) Other Administrative Expenses (corresponding to Schedule 22)	351.84	314.85
ii) In deposit accounts	-	-	II. Payments made against funds for various projects	--	-
iii) Savings accounts	50.91	16.93	III. Investments and Deposits made	-	-
c) Remittances	-	-	Investments of ESIC Funds	36,772.35	39,965.86
II. Grants Received	-	-	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
a) From Government of India	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	150.22	109.43
b) From State Government	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress	493.62	302.62
c) From other sources (details) (Grants for capital & revenue exp. To be shown separately)	-	-	V. Refund of surplus money/Loans	-	-
III. Income on Investments from	-	-	a) To the Government of India	-	-
Investments of ESIC Funds	8,093.67	7,816.47	b) To the State Government	-	-
IV. Interest Received	-	-	c) To other providers of funds	-	-
a) On Bank deposits	10.67	13.44	VI. Finance Charges (Interest)	-	-
b) Employees' Loans & Advances	0.12	0.22	VII. Other Payments (Specify)	-	-
V. Investment-Maturity	27,803.58	30,979.26	a) Special Repair & Maintenance	40.93	13.04
VI. Income - Contribution	15,211.87	13,082.85	b) Third Party Advances	749.93	148.20
VII. Amount Borrowed	-	-	c) Employees' Advance	51.86	46.69
VIII. Any other receipts (give details)	-	-	d) Securities & Other Deposits	82.98	75.85
a) Deposits (Security /EMD/Misc.)	75.99	32.95	e) Prior Period Items	(210.61)	(10.77)
b) Medical Education Receipts	30.94	35.82	f) Employees Benefit (GPF ,NPS,GSLISetc.)	529.57	462.71
c) Employees Benefit Fund (Pension Contribution, PMS Receipt etc.)	515.88	460.95	g) Statutory Dues & other deduction	(13.97)	11.84
d) Other Income	397.69	1,293.68	VIII. Closing Balances	-	-
	-	-	a) Cash in hand	0.02	0.03
	-	-	b) Bank Balances	-	-
	-	-	i) In current accounts	-	-
	-	-	ii) In deposit accounts	-	-
	-	-	iii) Savings accounts	52.74	50.91
	-	-	c) Remittances	413.55	1,372.67
Total	52,191.35	53,732.58	Total	52,191.35	53,732.58



वार्षिक लेखे 2021-2022

क.रा.बी. निगम भविष्य निधि

31 मार्च, 2022 को सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान

प्राप्तियां	राशि ₹ करोड़ में	भुगतान	राशि ₹ करोड़ में
1. अथ शेष	1,161.17	1. अभिदाता को किया गया भुगतान	200.46
2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	163.78	2. अंत शेष	1,205.80
3. जमा किया गया ब्याज	81.31		
4. घटाएं : अदावाकृत जमाओं में अंतरित राशि	-		
कुल	1,406.26	कुल	1,406.26

विवरण	सा.भ.नि. खातों के अनुसार ₹ करोड़ में	क.रा.बी.नि. खातों के अनुसार ₹ करोड़ में	अंतर ₹ करोड़ में
अथ शेष 01.04.2022 (क)	1,161.17	1,176.83	(15.66)
प्राप्ति 2021-2022 (ख)	163.78	164.10	(0.32)
ब्याज 2021-2022 (ग)	81.31	81.31	0.00
उप योग घ = (क+ख+ग)	1,406.26	1,422.24	(15.98)
भुगतान 2020-21 (ङ)	200.46	200.54	(0.08)
अंत शेष 31.03.2021(घ-ङ)	1,205.80	1,221.70	15.90



ESI CORPORATION PROVIDENT FUND G P F RECEIPTS AND PAYMENTS AS ON 31ST MARCH, 2022

RECEIPTS	AMOUNT ₹ in Crore	PAYMENTS	AMOUNT ₹ in Crore
1. Opening Balance	1,161.17	1. Payment to the subscribers	200.46
2. Receipt during the year	163.78	2. Closing Balance	1,205.80
3. Interest credited	81.31		
4. Less: Amount transferred to Unclaimed Deposits	-		
TOTAL	1,406.26	TOTAL	1,406.26

PARTICULARS	As Per GPF Accounts ₹ in Crore	As per ESIC Accounts ₹ in Crore	Difference ₹ in Crore
Opening Balance 1.4.2022(A)	1,161.17	1,176.83	(15.66)
Receipt 2021-22 (B)	163.78	164.10	(0.32)
Interest 2021-22(C)	81.31	81.31	0.00
Sub Total D (A + B + C)	1,406.26	1,422.24	(15.98)
Payment 2020-21(E)	200.46	200.54	(0.08)
Closing Balance 31.03.2021(D - E	1,205.80	1,221.70	(15.90)



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

Ministry of Labour & Employment

Government of India

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi - 110 002

Toll-Free No.1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839

Website: www.esic.nic.in, www.esic.in

[esic.nic.in](http://www.esic.nic.in) [@esichq](https://www.facebook.com/esichq) [@esichq](https://www.instagram.com/esichq) [@esichq](https://www.youtube.com/esichq) [@esichq](https://www.linkedin.com/company/esichq)